

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अगस्त, 2015-श्रावण 23, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व का नाम कल्लू था, जबकि मेरा नया नाम कल्याण सिंह पुत्र स्व. श्री लखन सिंह है, मेरी एक एल. आई. सी. पॉलिसी है. जिसमें मेरा नाम कल्लू लिखा है. जबकि वोटर कार्ड, बैंक पास बुक तथा अन्य कागजातों में मेरा नाम कल्याण सिंह है. कल्लू तथा कल्याण सिंह एक ही व्यक्ति के नाम हैं.

पुराना नाम :
(कल्लू)

(258-बी.)

नया नाम :
(कल्याण सिंह)
पुत्र-स्व. श्री लखन सिंह,
पता-ग्राम कछोआ, तहसील चीनोर,
जिला-ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम लीलावती दुबे पत्नि श्री सी. एम. दुबे था. जो अब परिवर्तित होकर लीला दुबे हो गया है. अतः अब मुझे नये नाम लीला दुबे पत्नि श्री सी. एम. दुबे के नाम से जाना, पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(लीलावती दुबे)

(261-बी.)

नया नाम :
(लीला दुबे)
पता-एम/एक्स/178, ई-7, एक्सटेंशन
अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

“मैं घनश्याम सोनी पिता श्री बालमुकुन्द सोनी के नाम से जाना जाता रहा हूँ. पूर्व से ही मेरे परिवार वालों ने मेरा एक अन्य नाम सौरभ रखा था. मेरे द्वारा धार्मिक मान्यताओं के कारण अपना नाम घनश्याम सोनी की जगह सौरभ सोनी रख लिया गया था, अतः मुझे घनश्याम सोनी की जगह सौरभ सोनी के नाम से ही जाना जावे व समस्त कार्यवाही भी सौरभ सोनी के नाम से की जावे”.

पुराना नाम :
(घनश्याम सोनी)

(272-बी.)

नया नाम :
(सौरभ सोनी)
निवासी-87, ओल्ड जगदम्बा कॉलोनी,
अहिंसा चौक, विजयनगर जबलपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, शादी के पूर्व में मेरा नाम कुमारी नेहा थारवानी पुत्री श्री नवलकिशोर थारवानी था. शादी के बाद मेरा नाम परिवर्तित नया नाम श्रीमती याशी हितेश बुलानी पत्नि श्री हितेश बुलानी हो गया है. लिहाजा आज के बाद भविष्य में मुझे श्रीमती याशी हितेश बुलानी पत्नि श्री हितेश बुलानी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(नेहा थारवानी)

(262-बी.)

नया नाम :
(याशी हितेश बुलानी)
पत्नि- श्री हितेश बुलानी,
पता-2343, रचनानगर, धर्मवीर पेट्रोल पम्प
के सामने, एयरपोर्ट रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम कु. नमिता घाटे पुत्री स्व. श्री वासुदेव घाटे था. विवाहउपरान्त मेरा नाम श्रीमती अपूर्वा निगड़ीकर पत्नी श्री अजय निगड़ीकर हो गया है. विवाह तिथि-28-01-1990, निवासी-बी-180, आदर्श नगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल.

Old Name :
(NAMITA GHATE)

(265-B.)

New Name :
(APOORVA NIGDIKAR)
B-180, Adarsh Nagar, Hoshangabad
Road, Ahmedpur Bhopal-462023.

CHANGE OF NAME

My Prerious name Miss Swati Dixit daughter of Dr. Subhash Chandra Dixit, Mother Mrs. Geeta Dixit, 349, Gautam Nagar, Govindpura, Bhopal-462023, Post my marriage with Mr. Vijay Bhambhani. I am required to change my name for obvious legal reasons from Miss Swati Dixit to Mrs. Swati Vijay Bhambhani, residing at 170, A-Vikas kunj, Bawadia Kala, E-8, Tehsil-Huzur, Distt. Bhopal Pin-462039 (M.P.). Therefore, my new identity should be/known as Mrs. Swati Vijay Bhambhani.

Old Name :
(SWATI DIXIT)

(270-B.)

New Name :
(SWATI VIJAY BHAMBHANI)

नाम परिवर्तन

पुष्पेन्द्र कुमार निगम पिता श्री बी. आर. निगम, उम्र 41 वर्ष, जाति कायस्थ, निवासी शोभापुर (पाथाखेड़ा), बैतूल (म.प्र.) यह कि मैं, शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरी पुत्री सौम्या जो कि कक्षा 9वीं में अध्ययनरत है, मेरी पुत्री का नाम स्कूल में गलती से प्रोम्या लिखा गया था. जिसका वास्तविक नाम सौम्या ही है. अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री को सौम्या नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुष्पेन्द्र कुमार निगम,
शोभापुर (पाथाखेड़ा) बैतूल (म.प्र.).

(271-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा हायर सेकेण्डरी की अंकसूची में मेरा नाम ASHOK KUMAR BHAGWANI अंकित है बैंक की सेवाओं (PSU SBI) में आने के बाद मैंने अपना नाम बदलकर ASHOK BHAGWANI रख लिया है जो कि मेरे बैंक रिकार्ड में भी दर्ज है मेरे विभिन्न दस्तावेजों जैसे वोटर कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक पासबुक में भी अंकित है अब मुझे भविष्य में ASHOK BHAGWANI के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(ASHOK KUMAR BHAGWANI)

(273-B.)

नया नाम :
(ASHOK BHAGWANI)
पुत्र-श्री सूमामल,
निवासी-सी-12, बैंकर्स कॉलोनी,
थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, दिनेश पाटिल आत्मज स्व. हरीदास पाटिल, निवासी-12/17, हाऊसिंग बोर्ड, कॉलोनी ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल का पूर्व नाम देवभान पाटिल था. अब मुझे दिनेश पाटिल नाम से जाना व पहचाना जाता है.

पुराना नाम :

(देवभान पाटिल)

(263-बी.)

नया नाम :

(दिनेश पाटिल)

आम सूचना**M/S SHRI LALITA KRIPA CONSTRUCTION COMPANY**

(Reg. No. 01/01/01/00024/14)

Letter No. S.L.K. 01, Date 09-09-2014

Shri Lalita Kripa Construction Company

द्वारा सर्वजनों को सूचित किया जाता है कि फर्म का रजिस्टर्ड पता बदलकर बटान नं. 24, 'S.L.K. Towers' त्रिलंगा, भोपाल-462039 किया जा रहा है.

यह जाहिर सूचना वैधानिक कारणों से प्रकाशित की जा रही है एवं इसमें कोई दुराभिसंधी नहीं है. यह बदलाव रजिस्ट्रार सोसायटी एवं फर्म को भी सूचित किया जा रहा है. अतः आज दिनांक 09-09-2014 से फर्म के हित में देखा जावे.

M/s Shri Lalita Kripa Construction Company,

रोहित नायक,

(Proprietor)

पता-बटान नं. 24, एसएलके टावर्स,

त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.).

(256-बी.)

NOTICE

This is to inform to all persons that following amendments have been made in Partnership Firm SHIVHARE WAREHOUSING incorporated on 9th day of July 2012 and registered vide registration No. 01/01/01/00232/12 Dated 12-09-2012 with Registrar of Firms Bhopal:—

1. That Shri Anil Shivhare S/o Lt. Shri C. L. Shivhare had retired from firm vide Amendment in Partnership Deed Dated 18th July 2015.
2. That Smt. Neelam Shivhare W/o Shri Subash Shivhare had entered in to partnership vide Amendment in Partnership Deed Dated 18th July 2015.

SHIVHARE WAREHOUSING.

नीलम शिवहरे,

(Partner).

(257-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01-04-2013 से भागीदारी पंजीकृत फर्म जिसका पंजीयन क्रमांक 01/08/02/00133/03, दिनांक 27 नवम्बर, 2003 है मैं, अमृतलाल जैन, पता-अमृतश्री मेन रोड, हरदा की भागीदारी में (1) मंयंक जैन आत्मज श्री राजीव कुमार जैन, निवासी हरदा (उम्र-वयस्क) को भागीदार के रूप में शामिल किया गया तथा श्री सतीश कुमार जैन एवं श्री अशोक कुमार जैन भागीदारी से विलग हो गये हैं.

फर्म मे. अमृतलाल जैन,

राजीव कुमार जैन,

(भागीदार).

अमृतश्री मेन रोड, हरदा (म.प्र.).

(266-बी.)

आम सूचना

पंजीयन क्रं. 01/01/00132/13, दिनांक 06-06-2013

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स मिश्रा इंटरप्राइजेजस स्थित, पता-डी-1, साईनाथ कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है एवं दिनांक 13-05-2013 को भागीदार (1) श्री उमेश मिश्रा पुत्र श्री ओ. पी. मिश्रा, पता-डी. एच. बी. 2/219, दानिश हिल्स, कोलार रोड, भोपाल, (2) विनोद मिश्रा पिता श्री आर. पी. मिश्रा, निवासी-78, महावली नगर, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से भागीदारी से उक्त फर्म से पृथम (अलग) हो रहे हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

फर्म मैसर्स मिश्रा इंटरप्राइजेस,

अंचल अग्रवाल,

(भागीदार).

13-सी आनन्द ग्लोबल प्लेटिनम,

उपभोक्ता फोरम के सामने डी-1,

साईनाथ कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).

(267-बी.)

जाहिर सूचना

मे. हरसिद्धि ट्रेडर्स जो कि एक पंजीकृत भागीदारी फर्म है इसमें 8 जुलाई, 2015 से श्रीमती मनजीत कौर होरा पति श्री हरमिंदरसिंह होरा, निवासी-45, 46 आदित्य नगर, इंदौर एक नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई है.

For- Harsiddhi Traders,
HARMINDER SINGH HORA,
(Partner).

(253-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मे. गोपी डेवेलपर्स, सिवनी के नाम से एक साझेदारी फर्म है, जिसका पंजीयन क्र.04/18/01/0027/13 वर्ष, 2013-14 दिनांक 24-04-2013 है. इस फर्म में दिनांक 27-09-2013 को संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत पाँच नए साझेदारों को शामिल किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :-

1. श्री योगेश सीताराम फालसमकर
2. श्री निरंजन बाबूराव कीनि
3. श्री स्नेहिल सुनील माथरे
4. श्री संगम जगदीश तांडेल
5. श्री हितेश हेमंत तांडेल

इसी फर्म में पुनः दिनांक 24-04-2015 को संशोधन किया गया एवं एक नए साझेदार मे. मैत्री रियलेटर एवं कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमि. कम्पनी को शामिल किया गया है. सर्व-साधारण को सूचना हेतु जारी.

अरुण सिंघानिया,
(पार्टनर).

(269-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मे. यश डेवेलपर्स, सिवनी के नाम से एक साझेदारी फर्म है, जिसका पंजीयन क्र.04/18/01/00018/14 वर्ष, 2014-15 दिनांक 05-05-2014 है. इस फर्म में दिनांक 14-06-2014 को संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत पाँच नए साझेदारों को शामिल किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :-

1. श्री योगेश सीताराम फालसमकर
2. श्री निरंजन बाबूराव कीनि
3. श्री स्नेहिल सुनील माथरे
4. श्री संगम जगदीश तांडेल
5. श्री हितेश हेमंत तांडेल

इसी फर्म में पुनः दिनांक 24-04-2015 को संशोधन किया गया एवं एक नए साझेदार मे. मैत्री रियलेटर एवं कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमि. कम्पनी को शामिल किया गया है. सर्व-साधारण को सूचना हेतु जारी.

अरुण सिंघानिया,
(पार्टनर).

(268-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स सुन्दरम इण्डस्ट्रीज 01, प्रताप गंज, सेन्धवा, जिला बड़वानी (म.प्र.) पर स्थित है. जिसमें जिनिंग एवं प्रेसींग आईल मिल स्पीनिंग, सी एण्ड एफ एजेन्ट, कमीशन एजेन्ट का कार्य किया जाता है. जिसका पंजीयन क्रमांक 03/31/01/00106/07 सन् 2007-08, दिनांक 27 सितम्बर, 2007 से वैध है. जिसमें पूर्व में तीन पार्टनर (1) श्री संजय S/o श्रीनिवास अग्रवाल, (2) श्री श्रीनिवास अग्रवाल S/o बंशीधर अग्रवाल, (3) श्रीमती सुनिता देवी W/o श्री दीपक कुमार अग्रवाल कार्य संचालित कर रहे थे. व्यवसाय बढ़ाने के उद्देश्य से दिनांक 01-04-2015 से फर्म में चार नये पार्टनर प्रवेश ले रहे हैं जिनके नाम (1) श्री हर्षवर्धन S/o श्री दीपक अग्रवाल, (2) श्री यशवर्धन S/o सुनिल अग्रवाल, (3) श्री जयवर्धन S/o श्री वल्लभदास अग्रवाल, (4) श्री मोहित S/o श्री संजय अग्रवाल.

किसी को इस सन्दर्भ में कोई आपत्ति हो तो 15 दिन में सूचित करें.

Sundaram Industries,
श्रीनिवास अग्रवाल,
(Partner).

(264-B.)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 08 जुलाई, 2015

(राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2014, परीक्षा दिनांक 09 मई, 2015 (शनिवार) संक्षिप्त समाचार विज्ञप्ति)

वि. क्र. 577/21/2015/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-03/परीक्षा/2014, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 08 फरवरी, 2015 के अन्तर्गत कुल-591 पदों हेतु राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2014 परीक्षा दिनांक 09 मई, 2015 (शनिवार) दो सत्रों में प्रथम प्रश्नपत्र-सामान्य अध्ययन प्रातः 10.00 से 12.00 बजे एवं द्वितीय प्रश्नपत्र-सामान्य अभिरूचि परीक्षण अपरान्ह 2.00 से 4.00 बजे तक परीक्षा केन्द्र-51 जिला मुख्यलायों पर परीक्षा आयोजित की गई थी. उपरोक्त लिखित परीक्षा में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2014 हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक 577/21/2015/अनु.-10, दिनांक 08 जुलाई, 2015 द्वारा घोषित किया गया है यह परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना पटल पर देखने के लिए उपलब्ध है तथा "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है. इसे आयोग की वेबसाइट- www.mppsc.com & www.mppsc.nic.in पर देखा जा सकता है. इस परीक्षा में 2,55,107 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये एवं समस्त आवेदकों को लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये थे. इस परीक्षा में कुल-1,76,054 आवेदक उपस्थित हुए. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014 हेतु 9503 आवेदक प्रावधिक अर्ह पाये गये. इनमें से अनारक्षित-4869, अनुसूचित जाति-1449, अनुसूचित जनजाति-1942, अन्य पिछड़ा वर्ग-1243 (कुल अर्ह आवेदकों में निःशक्त-596 सम्मिलित भूतपूर्व सैनिक-174 एवं समान अंकप्राप्त अर्ह आवेदक सम्मिलित हैं.) भूतपूर्व सैनिक अनुसूचित जाति-08, अनुसूचित जनजाति-44, आवेदक कम प्राप्त हुए. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा फल की सूची ही प्रमाणित मानी जाएगी.

2. राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2014 अर्ह आवेदकों के लिये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014 की लिखित परीक्षा दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 से होगी. इस हेतु अर्ह आवेदक आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com & www.mppsc.nic.in पर परीक्षा परिणाम देख सकेंगे.
3. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014 लिखित परीक्षा के समय प्रवेश-पत्र के साथ आवेदक अपना मूल फोटो पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लायेंगे. परीक्षा के समय इसकी प्रतिदिन जाँच की जावेगी. मूल पहचान-पत्र प्रवेश पत्र के साथ नहीं लाने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी.
4. अर्ह आवेदक राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014 में बैठने हेतु आवेदन-पत्र एम. पी. ऑनलाईन से दिनांक 16 जुलाई, 2015 से 17 अगस्त, 2015 तक भर सकेंगे. इसकी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 15 जुलाई, 2015 तक जारी कर दी जावेगी.
5. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
6. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

आर. आर. काहरे,

परीक्षा नियंत्रक.

(425)

(राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2014, परीक्षा दिनांक 09 मई, 2015 (शनिवार) लिखित परीक्षा परिणाम)

इन्दौर, दिनांक 08 जुलाई, 2015

वि. क्र. 577/21/2015/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-03/परीक्षा/2014, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 08 फरवरी, 2015 के अन्तर्गत कुल-591 पदों हेतु राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2014 परीक्षा दिनांक 09 मई, 2015 (शनिवार) को दो सत्रों में प्रथम प्रश्नपत्र-सामान्य अध्ययन प्रातः 10.00 से 12.00 बजे एवं द्वितीय प्रश्नपत्र-सामान्य अभिरूचि परीक्षण अपरान्ह 2.00 से 4.00 बजे तक परीक्षा केन्द्र-51 जिला मुख्यलायों पर परीक्षा आयोजित की गई थी.

उपरोक्त परीक्षा में पद संख्या के 15 गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक सम्मिलित हैं. कुल श्रेणीवार प्रावधिक अर्ह आवेदकों की

संख्या-9503 है. इनमें से श्रेणीवार प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या निम्नानुसार हैं :-

श्रेणी	विवक्षित पद-591	प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या-9503
(इनमें श्रेणीवार, समान अंक निःशक्त एवं भूतपूर्व सैनिक आवेदक भी सम्मिलित है)		
अनारक्षित-	300	4869
अनुसूचित जाति-	87	1449
अनुसूचित जनजाति-	125	1942
अन्य पिछड़ा वर्ग-	79	1243

कुल अर्ह आवेदकों 9503, में निः शक्त-596 एवं भूतपूर्व सैनिक-174 सम्मिलित है.

भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति-08, अनुसूचित जनजाति-44 आवेदक कम पाए गए.

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014 हेतु प्रावधिक अर्ह पाए गए-9503 आवेदकों के रोल नम्बर निम्नानुसार हैं:-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

STATE SERVICE PRELIMINARY EXAMINATION, 2014

ROLL NO. WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES (PROVISIONAL)

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
1.	100013	33.	100327	65.	100665	97.	101267	129.	101656
2.	100014	34.	100340	66.	100680	98.	101297	130.	101663
3.	100035	35.	100349	67.	100686	99.	101302	131.	101693
4.	100038	36.	100353	68.	100718	100.	101306	132.	101717
5.	100047	37.	100368	69.	100740	101.	101312	133.	101719
6.	100071	38.	100372	70.	100792	102.	101316	134.	101722
7.	100074	39.	100386	71.	100831	103.	101325	135.	101731
8.	100081	40.	100388	72.	100843	104.	101326	136.	101740
9.	100082	41.	100400	73.	100859	105.	101366	137.	101748
10.	100086	42.	100410	74.	100862	106.	101369	138.	101754
11.	100097	43.	100426	75.	100894	107.	101384	139.	101761
12.	100114	44.	100442	76.	100899	108.	101398	140.	101768
13.	100117	45.	100450	77.	100943	109.	101402	141.	101771
14.	100158	46.	100463	78.	100946	110.	101405	142.	101774
15.	100159	47.	100464	79.	100995	111.	101418	143.	101787
16.	100168	48.	100465	80.	101012	112.	101454	144.	101789
17.	100187	49.	100485	81.	101016	113.	101476	145.	101817
18.	100191	50.	100493	82.	101024	114.	101478	146.	101822
19.	100199	51.	100504	83.	101031	115.	101491	147.	101826
20.	100202	52.	100520	84.	101063	116.	101511	148.	101829
21.	100207	53.	100521	85.	101076	117.	101522	149.	101835
22.	100212	54.	100525	86.	101081	118.	101525	150.	101844
23.	100225	55.	100545	87.	101086	119.	101527	151.	101852
24.	100236	56.	100548	88.	101102	120.	101554	152.	101854
25.	100239	57.	100607	89.	101185	121.	101568	153.	101869
26.	100253	58.	100615	90.	101203	122.	101582	154.	101871
27.	100272	59.	100619	91.	101205	123.	101608	155.	101888
28.	100279	60.	100624	92.	101210	124.	101609	156.	101899
29.	100286	61.	100627	93.	101219	125.	101618	157.	101909
30.	100307	62.	100648	94.	101240	126.	101634	158.	101939
31.	100319	63.	100654	95.	101259	127.	101650	159.	101974
32.	100324	64.	100658	96.	101262	128.	101654	160.	101982

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
161.	102001	208.	102718	255.	103379	302.	104282	349.	105001
162.	102033	209.	102730	256.	103394	303.	104284	350.	105080
163.	102048	210.	102739	257.	103435	304.	104286	351.	105087
164.	102064	211.	102757	258.	103442	305.	104291	352.	105107
165.	102071	212.	102759	259.	103454	306.	104300	353.	105135
166.	102079	213.	102767	260.	103512	307.	104314	354.	105153
167.	102081	214.	102772	261.	103536	308.	104318	355.	105160
168.	102085	215.	102780	262.	103565	309.	104337	356.	105187
169.	102093	216.	102798	263.	103574	310.	104342	357.	105196
170.	102095	217.	102813	264.	103583	311.	104369	358.	105200
171.	102101	218.	102825	265.	103612	312.	104384	359.	105218
172.	102109	219.	102833	266.	103621	313.	104391	360.	105223
173.	102114	220.	102844	267.	103630	314.	104400	361.	105235
174.	102123	221.	102860	268.	103648	315.	104409	362.	105258
175.	102135	222.	102874	269.	103673	316.	104418	363.	105285
176.	102159	223.	102875	270.	103678	317.	104437	364.	105297
177.	102170	224.	102909	271.	103721	318.	104441	365.	105325
178.	102171	225.	102938	272.	103739	319.	104452	366.	105329
179.	102182	226.	102978	273.	103753	320.	104453	367.	105349
180.	102238	227.	102990	274.	103761	321.	104462	368.	105352
181.	102297	228.	103001	275.	103831	322.	104471	369.	105376
182.	102317	229.	103012	276.	103863	323.	104520	370.	105408
183.	102329	230.	103013	277.	103893	324.	104549	371.	105413
184.	102334	231.	103017	278.	103914	325.	104554	372.	105505
185.	102338	232.	103022	279.	103926	326.	104567	373.	105506
186.	102356	233.	103033	280.	103985	327.	104600	374.	105513
187.	102377	234.	103039	281.	103996	328.	104602	375.	105518
188.	102383	235.	103044	282.	103997	329.	104639	376.	105520
189.	102419	236.	103058	283.	104029	330.	104641	377.	105542
190.	102424	237.	103069	284.	104030	331.	104672	378.	105568
191.	102442	238.	103072	285.	104033	332.	104679	379.	105577
192.	102455	239.	103109	286.	104036	333.	104694	380.	105586
193.	102458	240.	103113	287.	104072	334.	104713	381.	105595
194.	102467	241.	103136	288.	104073	335.	104739	382.	105600
195.	102479	242.	103146	289.	104091	336.	104749	383.	105613
196.	102487	243.	103183	290.	104095	337.	104775	384.	105624
197.	102514	244.	103186	291.	104121	338.	104778	385.	105667
198.	102518	245.	103239	292.	104166	339.	104780	386.	105673
199.	102595	246.	103271	293.	104176	340.	104840	387.	105685
200.	102618	247.	103272	294.	104178	341.	104842	388.	105692
201.	102621	248.	103286	295.	104184	342.	104897	389.	105697
202.	102624	249.	103287	296.	104186	343.	104899	390.	105701
203.	102652	250.	103291	297.	104216	344.	104912	391.	105737
204.	102660	251.	103303	298.	104234	345.	104963	392.	105755
205.	102693	252.	103320	299.	104241	346.	104966	393.	105761
206.	102705	253.	103332	300.	104262	347.	104996	394.	105776
207.	102715	254.	103359	301.	104280	348.	105000	395.	105786

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
396.	105787	443.	106644	490.	107643	537.	108496	584.	109143
397.	105797	444.	106677	491.	107646	538.	108497	585.	109171
398.	105817	445.	106687	492.	107650	539.	108516	586.	109174
399.	105820	446.	106690	493.	107671	540.	108518	587.	109196
400.	105833	447.	106710	494.	107711	541.	108523	588.	109215
401.	105918	448.	106758	495.	107712	542.	108529	589.	109229
402.	105927	449.	106775	496.	107714	543.	108532	590.	109260
403.	105940	450.	106777	497.	107724	544.	108543	591.	109261
404.	105954	451.	106820	498.	107838	545.	108557	592.	109267
405.	105975	452.	106832	499.	107839	546.	108559	593.	109270
406.	106037	453.	106847	500.	107850	547.	108562	594.	109274
407.	106053	454.	106866	501.	107862	548.	108590	595.	109287
408.	106054	455.	106869	502.	107881	549.	108605	596.	109289
409.	106066	456.	106887	503.	107889	550.	108609	597.	109300
410.	106086	457.	106911	504.	107899	551.	108667	598.	109301
411.	106090	458.	106926	505.	107904	552.	108686	599.	109309
412.	106102	459.	106928	506.	107927	553.	108687	600.	109332
413.	106151	460.	106937	507.	107932	554.	108696	601.	109340
414.	106164	461.	106945	508.	107958	555.	108719	602.	109358
415.	106165	462.	106952	509.	107968	556.	108725	603.	109360
416.	106214	463.	106968	510.	107969	557.	108731	604.	109366
417.	106226	464.	107010	511.	107977	558.	108738	605.	109388
418.	106241	465.	107024	512.	107991	559.	108771	606.	109391
419.	106253	466.	107032	513.	108025	560.	108810	607.	109402
420.	106282	467.	107049	514.	108041	561.	108816	608.	109406
421.	106313	468.	107169	515.	108042	562.	108819	609.	109416
422.	106347	469.	107203	516.	108062	563.	108838	610.	109449
423.	106348	470.	107239	517.	108066	564.	108860	611.	109451
424.	106356	471.	107274	518.	108070	565.	108870	612.	109457
425.	106363	472.	107285	519.	108084	566.	108875	613.	109468
426.	106371	473.	107310	520.	108085	567.	108887	614.	109472
427.	106387	474.	107311	521.	108091	568.	108910	615.	109481
428.	106399	475.	107315	522.	108118	569.	108925	616.	109519
429.	106422	476.	107345	523.	108161	570.	108933	617.	109526
430.	106446	477.	107409	524.	108233	571.	108943	618.	109550
431.	106469	478.	107420	525.	108276	572.	108951	619.	109551
432.	106473	479.	107434	526.	108283	573.	108964	620.	109552
433.	106487	480.	107458	527.	108323	574.	108986	621.	109558
434.	106516	481.	107480	528.	108340	575.	109031	622.	109582
435.	106530	482.	107485	529.	108348	576.	109035	623.	109595
436.	106540	483.	107495	530.	108377	577.	109040	624.	109608
437.	106555	484.	107506	531.	108395	578.	109067	625.	109609
438.	106567	485.	107508	532.	108398	579.	109078	626.	109612
439.	106575	486.	107513	533.	108411	580.	109099	627.	109618
440.	106585	487.	107523	534.	108444	581.	109101	628.	109623
441.	106593	488.	107559	535.	108469	582.	109119	629.	109629
442.	106605	489.	107602	536.	108470	583.	109124	630.	109653

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
631.	109661	678.	110647	725.	111464	772.	112236	819.	112940
632.	109667	679.	110650	726.	111476	773.	112250	820.	112977
633.	109717	680.	110661	727.	111490	774.	112253	821.	112987
634.	109748	681.	110671	728.	111491	775.	112266	822.	112991
635.	109845	682.	110695	729.	111511	776.	112273	823.	112992
636.	109919	683.	110711	730.	111553	777.	112280	824.	113003
637.	109925	684.	110721	731.	111587	778.	112283	825.	113065
638.	109958	685.	110724	732.	111590	779.	112291	826.	113066
639.	109968	686.	110735	733.	111598	780.	112294	827.	113153
640.	110047	687.	110737	734.	111607	781.	112300	828.	113195
641.	110054	688.	110740	735.	111611	782.	112312	829.	113198
642.	110137	689.	110746	736.	111612	783.	112325	830.	113230
643.	110141	690.	110762	737.	111615	784.	112327	831.	113235
644.	110154	691.	110794	738.	111619	785.	112337	832.	113269
645.	110197	692.	110803	739.	111627	786.	112382	833.	113287
646.	110199	693.	110817	740.	111643	787.	112386	834.	113293
647.	110222	694.	110845	741.	111652	788.	112416	835.	113298
648.	110252	695.	110860	742.	111671	789.	112432	836.	113316
649.	110271	696.	110900	743.	111675	790.	112446	837.	113317
650.	110311	697.	110904	744.	111700	791.	112464	838.	113382
651.	110348	698.	110906	745.	111708	792.	112470	839.	113393
652.	110358	699.	110932	746.	111710	793.	112511	840.	113396
653.	110359	700.	110952	747.	111713	794.	112515	841.	113402
654.	110367	701.	110966	748.	111799	795.	112528	842.	113440
655.	110372	702.	111021	749.	111855	796.	112560	843.	113461
656.	110416	703.	111031	750.	111865	797.	112577	844.	113468
657.	110453	704.	111084	751.	111866	798.	112582	845.	113476
658.	110468	705.	111109	752.	111913	799.	112588	846.	113481
659.	110478	706.	111128	753.	111921	800.	112608	847.	113483
660.	110487	707.	111158	754.	111925	801.	112611	848.	113487
661.	110502	708.	111168	755.	111940	802.	112613	849.	113508
662.	110506	709.	111174	756.	111956	803.	112641	850.	113545
663.	110508	710.	111210	757.	111959	804.	112644	851.	113558
664.	110529	711.	111213	758.	111980	805.	112651	852.	113574
665.	110542	712.	111219	759.	111983	806.	112692	853.	113592
666.	110543	713.	111240	760.	111989	807.	112725	854.	113607
667.	110549	714.	111264	761.	112011	808.	112740	855.	113608
668.	110551	715.	111271	762.	112039	809.	112764	856.	113610
669.	110560	716.	111371	763.	112052	810.	112792	857.	113623
670.	110565	717.	111384	764.	112060	811.	112805	858.	113648
671.	110572	718.	111428	765.	112090	812.	112807	859.	113652
672.	110585	719.	111445	766.	112117	813.	112811	860.	113668
673.	110603	720.	111451	767.	112146	814.	112821	861.	113674
674.	110608	721.	111453	768.	112158	815.	112837	862.	113715
675.	110624	722.	111454	769.	112189	816.	112841	863.	113721
676.	110629	723.	111459	770.	112195	817.	112858	864.	113724
677.	110638	724.	111461	771.	112233	818.	112900	865.	113783

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
866.	113826	913.	114618	960.	115410	1007.	116249	1054.	117207
867.	113880	914.	114631	961.	115411	1008.	116250	1055.	117209
868.	113887	915.	114643	962.	115421	1009.	116397	1056.	117218
869.	113902	916.	114681	963.	115430	1010.	116448	1057.	117254
870.	113906	917.	114701	964.	115441	1011.	116461	1058.	117264
871.	113913	918.	114771	965.	115460	1012.	116473	1059.	117268
872.	113924	919.	114777	966.	115491	1013.	116475	1060.	117288
873.	113969	920.	114779	967.	115492	1014.	116477	1061.	117295
874.	114006	921.	114786	968.	115541	1015.	116528	1062.	117310
875.	114015	922.	114807	969.	115542	1016.	116563	1063.	117311
876.	114048	923.	114809	970.	115551	1017.	116581	1064.	117320
877.	114086	924.	114839	971.	115595	1018.	116583	1065.	117323
878.	114093	925.	114897	972.	115599	1019.	116595	1066.	117324
879.	114097	926.	114916	973.	115611	1020.	116606	1067.	117335
880.	114106	927.	114938	974.	115666	1021.	116645	1068.	117353
881.	114113	928.	114939	975.	115680	1022.	116670	1069.	117373
882.	114137	929.	114954	976.	115706	1023.	116692	1070.	117376
883.	114138	930.	114966	977.	115714	1024.	116706	1071.	117402
884.	114139	931.	114977	978.	115726	1025.	116710	1072.	117406
885.	114146	932.	115000	979.	115732	1026.	116716	1073.	117415
886.	114162	933.	115003	980.	115759	1027.	116724	1074.	117424
887.	114167	934.	115006	981.	115785	1028.	116730	1075.	117458
888.	114170	935.	115014	982.	115797	1029.	116760	1076.	117474
889.	114199	936.	115042	983.	115836	1030.	116765	1077.	117515
890.	114217	937.	115075	984.	115857	1031.	116768	1078.	117531
891.	114235	938.	115080	985.	115879	1032.	116795	1079.	117564
892.	114251	939.	115124	986.	115908	1033.	116826	1080.	117578
893.	114259	940.	115126	987.	115910	1034.	116895	1081.	117604
894.	114267	941.	115128	988.	115958	1035.	116912	1082.	117645
895.	114268	942.	115145	989.	115971	1036.	116928	1083.	117650
896.	114273	943.	115177	990.	116001	1037.	116935	1084.	117678
897.	114293	944.	115202	991.	116023	1038.	116976	1085.	117680
898.	114294	945.	115248	992.	116044	1039.	116984	1086.	117687
899.	114299	946.	115279	993.	116048	1040.	116987	1087.	117711
900.	114302	947.	115283	994.	116053	1041.	116989	1088.	117764
901.	114312	948.	115290	995.	116078	1042.	117020	1089.	117811
902.	114326	949.	115298	996.	116117	1043.	117022	1090.	117814
903.	114369	950.	115330	997.	116118	1044.	117037	1091.	117839
904.	114370	951.	115336	998.	116122	1045.	117051	1092.	117843
905.	114430	952.	115338	999.	116148	1046.	117061	1093.	117850
906.	114491	953.	115342	1000.	116152	1047.	117066	1094.	117867
907.	114504	954.	115349	1001.	116166	1048.	117068	1095.	117887
908.	114529	955.	115355	1002.	116179	1049.	117073	1096.	117894
909.	114585	956.	115370	1003.	116200	1050.	117122	1097.	117917
910.	114596	957.	115378	1004.	116207	1051.	117131	1098.	117921
911.	114599	958.	115380	1005.	116220	1052.	117138	1099.	117939
912.	114617	959.	115383	1006.	116229	1053.	117142	1100.	117966

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
1101.	117968	1148.	118697	1195.	119550	1242.	120215	1289.	120940
1102.	117978	1149.	118698	1196.	119586	1243.	120247	1290.	120956
1103.	117999	1150.	118715	1197.	119589	1244.	120274	1291.	120961
1104.	118006	1151.	118735	1198.	119608	1245.	120285	1292.	120981
1105.	118014	1152.	118775	1199.	119620	1246.	120296	1293.	121014
1106.	118017	1153.	118780	1200.	119627	1247.	120338	1294.	121015
1107.	118020	1154.	118813	1201.	119642	1248.	120355	1295.	121021
1108.	118030	1155.	118818	1202.	119650	1249.	120359	1296.	121037
1109.	118042	1156.	118836	1203.	119671	1250.	120361	1297.	121046
1110.	118139	1157.	118838	1204.	119678	1251.	120373	1298.	121070
1111.	118150	1158.	118854	1205.	119700	1252.	120397	1299.	121077
1112.	118152	1159.	118858	1206.	119712	1253.	120406	1300.	121093
1113.	118174	1160.	118861	1207.	119723	1254.	120408	1301.	121098
1114.	118202	1161.	118962	1208.	119743	1255.	120410	1302.	121099
1115.	118220	1162.	119021	1209.	119763	1256.	120412	1303.	121128
1116.	118238	1163.	119029	1210.	119799	1257.	120443	1304.	121137
1117.	118246	1164.	119076	1211.	119804	1258.	120459	1305.	121144
1118.	118258	1165.	119077	1212.	119813	1259.	120485	1306.	121194
1119.	118267	1166.	119081	1213.	119825	1260.	120494	1307.	121197
1120.	118282	1167.	119096	1214.	119830	1261.	120498	1308.	121223
1121.	118301	1168.	119129	1215.	119842	1262.	120502	1309.	121225
1122.	118318	1169.	119144	1216.	119850	1263.	120545	1310.	121228
1123.	118330	1170.	119145	1217.	119864	1264.	120576	1311.	121248
1124.	118331	1171.	119169	1218.	119885	1265.	120617	1312.	121303
1125.	118338	1172.	119185	1219.	119887	1266.	120618	1313.	121335
1126.	118346	1173.	119189	1220.	119889	1267.	120640	1314.	121346
1127.	118347	1174.	119192	1221.	119893	1268.	120664	1315.	121360
1128.	118355	1175.	119220	1222.	119907	1269.	120684	1316.	121378
1129.	118412	1176.	119236	1223.	119925	1270.	120717	1317.	121406
1130.	118426	1177.	119239	1224.	119936	1271.	120762	1318.	121425
1131.	118431	1178.	119251	1225.	119956	1272.	120771	1319.	121438
1132.	118470	1179.	119252	1226.	119969	1273.	120777	1320.	121440
1133.	118475	1180.	119253	1227.	119970	1274.	120780	1321.	121467
1134.	118477	1181.	119258	1228.	119971	1275.	120783	1322.	121481
1135.	118488	1182.	119275	1229.	119972	1276.	120793	1323.	121491
1136.	118490	1183.	119326	1230.	119980	1277.	120794	1324.	121493
1137.	118507	1184.	119330	1231.	120003	1278.	120806	1325.	121548
1138.	118516	1185.	119340	1232.	120015	1279.	120845	1326.	121596
1139.	118529	1186.	119365	1233.	120021	1280.	120849	1327.	121603
1140.	118562	1187.	119397	1234.	120037	1281.	120861	1328.	121618
1141.	118607	1188.	119400	1235.	120039	1282.	120880	1329.	121624
1142.	118612	1189.	119449	1236.	120044	1283.	120883	1330.	121662
1143.	118645	1190.	119457	1237.	120081	1284.	120899	1331.	121664
1144.	118646	1191.	119485	1238.	120097	1285.	120904	1332.	121666
1145.	118650	1192.	119515	1239.	120148	1286.	120912	1333.	121670
1146.	118658	1193.	119519	1240.	120157	1287.	120932	1334.	121686
1147.	118662	1194.	119533	1241.	120177	1288.	120937	1335.	121711

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
1336.	121715	1383.	122358	1430.	123182	1477.	123903	1524.	124597
1337.	121718	1384.	122369	1431.	123223	1478.	123928	1525.	124605
1338.	121719	1385.	122419	1432.	123277	1479.	123952	1526.	124622
1339.	121728	1386.	122427	1433.	123280	1480.	123953	1527.	124632
1340.	121750	1387.	122439	1434.	123293	1481.	123961	1528.	124648
1341.	121754	1388.	122475	1435.	123304	1482.	123973	1529.	124655
1342.	121765	1389.	122505	1436.	123365	1483.	123975	1530.	124671
1343.	121777	1390.	122507	1437.	123393	1484.	123980	1531.	124687
1344.	121781	1391.	122508	1438.	123402	1485.	123982	1532.	124690
1345.	121802	1392.	122545	1439.	123407	1486.	123985	1533.	124708
1346.	121807	1393.	122546	1440.	123419	1487.	124062	1534.	124722
1347.	121816	1394.	122562	1441.	123421	1488.	124076	1535.	124734
1348.	121833	1395.	122566	1442.	123443	1489.	124088	1536.	124741
1349.	121839	1396.	122567	1443.	123444	1490.	124098	1537.	124752
1350.	121855	1397.	122578	1444.	123445	1491.	124147	1538.	124774
1351.	121873	1398.	122580	1445.	123449	1492.	124191	1539.	124785
1352.	121885	1399.	122596	1446.	123492	1493.	124211	1540.	124796
1353.	121897	1400.	122609	1447.	123503	1494.	124236	1541.	124827
1354.	121898	1401.	122615	1448.	123507	1495.	124250	1542.	124828
1355.	121921	1402.	122645	1449.	123508	1496.	124267	1543.	124831
1356.	121923	1403.	122648	1450.	123526	1497.	124269	1544.	124856
1357.	121952	1404.	122651	1451.	123532	1498.	124271	1545.	124902
1358.	121984	1405.	122655	1452.	123540	1499.	124288	1546.	124910
1359.	121997	1406.	122725	1453.	123547	1500.	124299	1547.	124912
1360.	122018	1407.	122732	1454.	123596	1501.	124319	1548.	124918
1361.	122032	1408.	122755	1455.	123599	1502.	124330	1549.	124968
1362.	122060	1409.	122759	1456.	123607	1503.	124353	1550.	124969
1363.	122061	1410.	122765	1457.	123614	1504.	124384	1551.	124971
1364.	122095	1411.	122779	1458.	123634	1505.	124398	1552.	124972
1365.	122110	1412.	122802	1459.	123641	1506.	124403	1553.	124978
1366.	122117	1413.	122808	1460.	123679	1507.	124410	1554.	125007
1367.	122129	1414.	122856	1461.	123705	1508.	124427	1555.	125016
1368.	122131	1415.	122859	1462.	123741	1509.	124436	1556.	125038
1369.	122147	1416.	122889	1463.	123751	1510.	124464	1557.	125040
1370.	122155	1417.	122894	1464.	123785	1511.	124483	1558.	125047
1371.	122156	1418.	122929	1465.	123787	1512.	124488	1559.	125088
1372.	122171	1419.	122971	1466.	123791	1513.	124491	1560.	125122
1373.	122182	1420.	123021	1467.	123820	1514.	124493	1561.	125129
1374.	122191	1421.	123068	1468.	123824	1515.	124505	1562.	125130
1375.	122194	1422.	123071	1469.	123842	1516.	124506	1563.	125134
1376.	122235	1423.	123078	1470.	123848	1517.	124515	1564.	125186
1377.	122243	1424.	123094	1471.	123851	1518.	124516	1565.	125193
1378.	122263	1425.	123144	1472.	123854	1519.	124539	1566.	125197
1379.	122324	1426.	123159	1473.	123863	1520.	124563	1567.	125201
1380.	122327	1427.	123168	1474.	123864	1521.	124567	1568.	125216
1381.	122333	1428.	123169	1475.	123898	1522.	124569	1569.	125222
1382.	122335	1429.	123175	1476.	123899	1523.	124592	1570.	125242

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
1571.	125252	1618.	126117	1665.	127037	1712.	127842	1759.	128696
1572.	125261	1619.	126136	1666.	127044	1713.	127851	1760.	128705
1573.	125276	1620.	126147	1667.	127103	1714.	127864	1761.	128725
1574.	125281	1621.	126163	1668.	127115	1715.	127891	1762.	128734
1575.	125301	1622.	126186	1669.	127134	1716.	127923	1763.	128777
1576.	125308	1623.	126219	1670.	127140	1717.	127934	1764.	128821
1577.	125321	1624.	126224	1671.	127192	1718.	127944	1765.	128824
1578.	125347	1625.	126234	1672.	127206	1719.	127959	1766.	128878
1579.	125368	1626.	126243	1673.	127217	1720.	127971	1767.	128886
1580.	125386	1627.	126251	1674.	127229	1721.	127974	1768.	128892
1581.	125418	1628.	126271	1675.	127246	1722.	127988	1769.	128904
1582.	125439	1629.	126327	1676.	127247	1723.	128026	1770.	128931
1583.	125462	1630.	126357	1677.	127265	1724.	128079	1771.	128942
1584.	125478	1631.	126359	1678.	127304	1725.	128112	1772.	128947
1585.	125483	1632.	126401	1679.	127314	1726.	128117	1773.	128956
1586.	125509	1633.	126407	1680.	127334	1727.	128125	1774.	128961
1587.	125546	1634.	126464	1681.	127342	1728.	128138	1775.	128971
1588.	125551	1635.	126509	1682.	127358	1729.	128169	1776.	128995
1589.	125561	1636.	126524	1683.	127382	1730.	128181	1777.	129093
1590.	125613	1637.	126536	1684.	127461	1731.	128182	1778.	129109
1591.	125620	1638.	126590	1685.	127464	1732.	128248	1779.	129115
1592.	125632	1639.	126605	1686.	127472	1733.	128252	1780.	129141
1593.	125648	1640.	126630	1687.	127491	1734.	128261	1781.	129148
1594.	125669	1641.	126680	1688.	127513	1735.	128295	1782.	129154
1595.	125680	1642.	126682	1689.	127528	1736.	128309	1783.	129166
1596.	125695	1643.	126687	1690.	127531	1737.	128324	1784.	129178
1597.	125737	1644.	126702	1691.	127545	1738.	128332	1785.	129182
1598.	125746	1645.	126727	1692.	127570	1739.	128334	1786.	129219
1599.	125756	1646.	126743	1693.	127571	1740.	128396	1787.	129239
1600.	125760	1647.	126803	1694.	127573	1741.	128399	1788.	129245
1601.	125813	1648.	126844	1695.	127575	1742.	128463	1789.	129250
1602.	125821	1649.	126846	1696.	127582	1743.	128467	1790.	129277
1603.	125851	1650.	126867	1697.	127634	1744.	128482	1791.	129291
1604.	125873	1651.	126888	1698.	127639	1745.	128491	1792.	129305
1605.	125925	1652.	126894	1699.	127654	1746.	128494	1793.	129343
1606.	125935	1653.	126902	1700.	127659	1747.	128504	1794.	129348
1607.	125951	1654.	126925	1701.	127662	1748.	128522	1795.	129369
1608.	125955	1655.	126937	1702.	127667	1749.	128564	1796.	129381
1609.	125957	1656.	126962	1703.	127670	1750.	128567	1797.	129386
1610.	125966	1657.	126972	1704.	127682	1751.	128582	1798.	129397
1611.	125974	1658.	126973	1705.	127688	1752.	128587	1799.	129408
1612.	126012	1659.	126980	1706.	127708	1753.	128631	1800.	129413
1613.	126047	1660.	126996	1707.	127737	1754.	128637	1801.	129416
1614.	126061	1661.	127010	1708.	127747	1755.	128649	1802.	129418
1615.	126066	1662.	127013	1709.	127773	1756.	128664	1803.	129420
1616.	126075	1663.	127015	1710.	127784	1757.	128665	1804.	129436
1617.	126086	1664.	127025	1711.	127792	1758.	128678	1805.	129457

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
1806.	129468	1853.	130520	1900.	131725	1947.	133010	1994.	134703
1807.	129483	1854.	130527	1901.	131727	1948.	133033	1995.	134711
1808.	129508	1855.	130528	1902.	131737	1949.	133047	1996.	134771
1809.	129526	1856.	130544	1903.	131745	1950.	133054	1997.	134805
1810.	129650	1857.	130577	1904.	131898	1951.	133073	1998.	134929
1811.	129655	1858.	130580	1905.	131906	1952.	133086	1999.	134965
1812.	129663	1859.	130585	1906.	131907	1953.	133157	2000.	134968
1813.	129724	1860.	130630	1907.	131941	1954.	133252	2001.	134976
1814.	129745	1861.	130635	1908.	131961	1955.	133282	2002.	135048
1815.	129751	1862.	130677	1909.	131985	1956.	133305	2003.	135077
1816.	129752	1863.	130692	1910.	131987	1957.	133321	2004.	135270
1817.	129758	1864.	130738	1911.	132066	1958.	133345	2005.	135302
1818.	129761	1865.	130747	1912.	132175	1959.	133360	2006.	135340
1819.	129777	1866.	130758	1913.	132183	1960.	133452	2007.	135356
1820.	129786	1867.	130766	1914.	132206	1961.	133486	2008.	135401
1821.	129790	1868.	130867	1915.	132212	1962.	133541	2009.	135414
1822.	129801	1869.	130888	1916.	132273	1963.	133593	2010.	135430
1823.	129840	1870.	130911	1917.	132284	1964.	133604	2011.	135491
1824.	129849	1871.	130929	1918.	132305	1965.	133662	2012.	135510
1825.	129855	1872.	130935	1919.	132307	1966.	133684	2013.	135594
1826.	129858	1873.	130949	1920.	132331	1967.	133698	2014.	135601
1827.	129862	1874.	130966	1921.	132378	1968.	133810	2015.	135606
1828.	129879	1875.	130969	1922.	132401	1969.	133811	2016.	135609
1829.	129902	1876.	130993	1923.	132408	1970.	133814	2017.	135670
1830.	129998	1877.	131101	1924.	132459	1971.	133825	2018.	135697
1831.	130003	1878.	131114	1925.	132498	1972.	133859	2019.	135742
1832.	130013	1879.	131140	1926.	132500	1973.	133867	2020.	135744
1833.	130036	1880.	131152	1927.	132510	1974.	133930	2021.	135747
1834.	130065	1881.	131160	1928.	132523	1975.	133951	2022.	135783
1835.	130080	1882.	131239	1929.	132553	1976.	133977	2023.	135791
1836.	130115	1883.	131263	1930.	132582	1977.	134016	2024.	135872
1837.	130199	1884.	131270	1931.	132584	1978.	134050	2025.	135884
1838.	130205	1885.	131283	1932.	132607	1979.	134071	2026.	135902
1839.	130238	1886.	131300	1933.	132671	1980.	134075	2027.	135909
1840.	130240	1887.	131338	1934.	132709	1981.	134105	2028.	135924
1841.	130252	1888.	131362	1935.	132727	1982.	134153	2029.	135970
1842.	130258	1889.	131372	1936.	132760	1983.	134188	2030.	136004
1843.	130301	1890.	131376	1937.	132789	1984.	134206	2031.	136010
1844.	130304	1891.	131394	1938.	132804	1985.	134239	2032.	136018
1845.	130334	1892.	131424	1939.	132835	1986.	134257	2033.	136057
1846.	130344	1893.	131434	1940.	132845	1987.	134313	2034.	136087
1847.	130368	1894.	131446	1941.	132858	1988.	134332	2035.	136128
1848.	130369	1895.	131547	1942.	132910	1989.	134381	2036.	136136
1849.	130400	1896.	131672	1943.	132931	1990.	134419	2037.	136247
1850.	130410	1897.	131684	1944.	132944	1991.	134512	2038.	136268
1851.	130413	1898.	131688	1945.	132993	1992.	134641	2039.	136357
1852.	130471	1899.	131710	1946.	133001	1993.	134649	2040.	136376

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
2041.	136472	2088.	138564	2135.	140297	2182.	141878	2229.	143363
2042.	136551	2089.	138575	2136.	140350	2183.	142007	2230.	143421
2043.	136625	2090.	138586	2137.	140369	2184.	142027	2231.	143433
2044.	136632	2091.	138596	2138.	140540	2185.	142054	2232.	143470
2045.	136662	2092.	138597	2139.	140611	2186.	142074	2233.	143486
2046.	136677	2093.	138622	2140.	140726	2187.	142076	2234.	143532
2047.	136758	2094.	138663	2141.	140743	2188.	142129	2235.	143533
2048.	136828	2095.	138673	2142.	140772	2189.	142164	2236.	143558
2049.	136852	2096.	138684	2143.	140775	2190.	142180	2237.	143569
2050.	136928	2097.	138706	2144.	140800	2191.	142230	2238.	143581
2051.	136954	2098.	138745	2145.	140861	2192.	142294	2239.	143608
2052.	136957	2099.	138770	2146.	140873	2193.	142349	2240.	143661
2053.	136965	2100.	138790	2147.	140896	2194.	142374	2241.	143666
2054.	137071	2101.	138831	2148.	140964	2195.	142441	2242.	143732
2055.	137112	2102.	138900	2149.	141022	2196.	142464	2243.	143855
2056.	137133	2103.	139030	2150.	141037	2197.	142488	2244.	143996
2057.	137191	2104.	139062	2151.	141059	2198.	142655	2245.	144039
2058.	137217	2105.	139094	2152.	141081	2199.	142660	2246.	144045
2059.	137259	2106.	139174	2153.	141127	2200.	142662	2247.	144052
2060.	137388	2107.	139191	2154.	141163	2201.	142664	2248.	144084
2061.	137402	2108.	139194	2155.	141180	2202.	142698	2249.	144085
2062.	137430	2109.	139284	2156.	141196	2203.	142702	2250.	144124
2063.	137481	2110.	139360	2157.	141231	2204.	142749	2251.	144131
2064.	137533	2111.	139373	2158.	141254	2205.	142778	2252.	144154
2065.	137606	2112.	139394	2159.	141283	2206.	142787	2253.	144155
2066.	137617	2113.	139399	2160.	141305	2207.	142797	2254.	144173
2067.	137626	2114.	139408	2161.	141327	2208.	142799	2255.	144175
2068.	137629	2115.	139438	2162.	141391	2209.	142803	2256.	144281
2069.	137721	2116.	139468	2163.	141403	2210.	142840	2257.	144323
2070.	137742	2117.	139485	2164.	141419	2211.	142871	2258.	144357
2071.	137751	2118.	139545	2165.	141427	2212.	142877	2259.	144377
2072.	137836	2119.	139644	2166.	141484	2213.	142977	2260.	144392
2073.	137937	2120.	139651	2167.	141490	2214.	142989	2261.	144461
2074.	137950	2121.	139669	2168.	141511	2215.	142992	2262.	144480
2075.	137952	2122.	139742	2169.	141520	2216.	143039	2263.	144484
2076.	137969	2123.	139749	2170.	141569	2217.	143057	2264.	144513
2077.	137985	2124.	139774	2171.	141588	2218.	143070	2265.	144538
2078.	138040	2125.	139833	2172.	141609	2219.	143112	2266.	144612
2079.	138091	2126.	139856	2173.	141631	2220.	143114	2267.	144652
2080.	138112	2127.	139873	2174.	141637	2221.	143137	2268.	144694
2081.	138212	2128.	140109	2175.	141651	2222.	143138	2269.	144716
2082.	138309	2129.	140164	2176.	141723	2223.	143181	2270.	144784
2083.	138333	2130.	140165	2177.	141727	2224.	143222	2271.	144795
2084.	138377	2131.	140232	2178.	141789	2225.	143236	2272.	144824
2085.	138428	2132.	140266	2179.	141851	2226.	143251	2273.	144882
2086.	138431	2133.	140279	2180.	141871	2227.	143359	2274.	144893
2087.	138531	2134.	140289	2181.	141876	2228.	143361	2275.	144894

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
2276.	144913	2323.	146104	2370.	146653	2417.	147413	2464.	148141
2277.	144929	2324.	146164	2371.	146659	2418.	147432	2465.	148149
2278.	144935	2325.	146182	2372.	146661	2419.	147435	2466.	148152
2279.	144988	2326.	146183	2373.	146667	2420.	147447	2467.	148155
2280.	144994	2327.	146185	2374.	146688	2421.	147450	2468.	148199
2281.	145006	2328.	146193	2375.	146689	2422.	147452	2469.	148239
2282.	145097	2329.	146201	2376.	146733	2423.	147456	2470.	148243
2283.	145112	2330.	146239	2377.	146739	2424.	147464	2471.	148265
2284.	145132	2331.	146247	2378.	146748	2425.	147478	2472.	148269
2285.	145146	2332.	146260	2379.	146756	2426.	147497	2473.	148278
2286.	145153	2333.	146265	2380.	146759	2427.	147559	2474.	148279
2287.	145161	2334.	146280	2381.	146765	2428.	147573	2475.	148287
2288.	145186	2335.	146283	2382.	146772	2429.	147616	2476.	148327
2289.	145205	2336.	146295	2383.	146773	2430.	147623	2477.	148368
2290.	145275	2337.	146296	2384.	146794	2431.	147636	2478.	148372
2291.	145465	2338.	146306	2385.	146848	2432.	147646	2479.	148394
2292.	145472	2339.	146312	2386.	146858	2433.	147648	2480.	148407
2293.	145478	2340.	146317	2387.	146864	2434.	147663	2481.	148416
2294.	145492	2341.	146327	2388.	146921	2435.	147672	2482.	148460
2295.	145498	2342.	146331	2389.	146935	2436.	147685	2483.	148475
2296.	145548	2343.	146332	2390.	146969	2437.	147698	2484.	148481
2297.	145655	2344.	146342	2391.	146971	2438.	147712	2485.	148495
2298.	145670	2345.	146350	2392.	146977	2439.	147747	2486.	148550
2299.	145675	2346.	146361	2393.	146981	2440.	147775	2487.	148562
2300.	145681	2347.	146369	2394.	147009	2441.	147797	2488.	148571
2301.	145718	2348.	146421	2395.	147021	2442.	147831	2489.	148592
2302.	145767	2349.	146427	2396.	147033	2443.	147844	2490.	148593
2303.	145789	2350.	146431	2397.	147060	2444.	147854	2491.	148603
2304.	145816	2351.	146442	2398.	147065	2445.	147875	2492.	148604
2305.	145818	2352.	146488	2399.	147139	2446.	147897	2493.	148607
2306.	145823	2353.	146492	2400.	147148	2447.	147908	2494.	148618
2307.	145839	2354.	146504	2401.	147171	2448.	147915	2495.	148719
2308.	145854	2355.	146516	2402.	147176	2449.	147940	2496.	148723
2309.	145879	2356.	146522	2403.	147187	2450.	147944	2497.	148735
2310.	145881	2357.	146523	2404.	147207	2451.	147951	2498.	148761
2311.	145912	2358.	146543	2405.	147228	2452.	147959	2499.	148866
2312.	145921	2359.	146553	2406.	147256	2453.	147991	2500.	148903
2313.	145924	2360.	146589	2407.	147259	2454.	148009	2501.	148910
2314.	145946	2361.	146594	2408.	147266	2455.	148020	2502.	148911
2315.	145951	2362.	146595	2409.	147269	2456.	148024	2503.	148924
2316.	145956	2363.	146604	2410.	147330	2457.	148052	2504.	148925
2317.	145987	2364.	146612	2411.	147335	2458.	148060	2505.	148984
2318.	145989	2365.	146622	2412.	147347	2459.	148064	2506.	149022
2319.	145990	2366.	146629	2413.	147359	2460.	148070	2507.	149032
2320.	146010	2367.	146631	2414.	147388	2461.	148092	2508.	149046
2321.	146060	2368.	146632	2415.	147403	2462.	148095	2509.	149048
2322.	146078	2369.	146650	2416.	147407	2463.	148135	2510.	149049

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
2511.	149053	2558.	150105	2605.	151145	2652.	152000	2699.	153066
2512.	149057	2559.	150122	2606.	151148	2653.	152022	2700.	153091
2513.	149111	2560.	150159	2607.	151155	2654.	152052	2701.	153111
2514.	149148	2561.	150163	2608.	151169	2655.	152055	2702.	153112
2515.	149152	2562.	150169	2609.	151190	2656.	152089	2703.	153198
2516.	149204	2563.	150170	2610.	151191	2657.	152092	2704.	153209
2517.	149228	2564.	150187	2611.	151201	2658.	152097	2705.	153216
2518.	149240	2565.	150245	2612.	151212	2659.	152102	2706.	153222
2519.	149275	2566.	150262	2613.	151228	2660.	152127	2707.	153229
2520.	149313	2567.	150298	2614.	151229	2661.	152168	2708.	153281
2521.	149317	2568.	150306	2615.	151240	2662.	152172	2709.	153313
2522.	149333	2569.	150313	2616.	151246	2663.	152207	2710.	153319
2523.	149336	2570.	150315	2617.	151262	2664.	152229	2711.	153354
2524.	149341	2571.	150344	2618.	151272	2665.	152259	2712.	153376
2525.	149347	2572.	150358	2619.	151293	2666.	152307	2713.	153404
2526.	149348	2573.	150381	2620.	151349	2667.	152383	2714.	153405
2527.	149437	2574.	150406	2621.	151366	2668.	152395	2715.	153438
2528.	149439	2575.	150434	2622.	151418	2669.	152427	2716.	153452
2529.	149467	2576.	150508	2623.	151427	2670.	152452	2717.	153477
2530.	149470	2577.	150541	2624.	151440	2671.	152457	2718.	153482
2531.	149479	2578.	150556	2625.	151449	2672.	152458	2719.	153516
2532.	149529	2579.	150583	2626.	151491	2673.	152468	2720.	153557
2533.	149531	2580.	150608	2627.	151497	2674.	152471	2721.	153565
2534.	149551	2581.	150645	2628.	151530	2675.	152480	2722.	153586
2535.	149564	2582.	150673	2629.	151571	2676.	152490	2723.	153602
2536.	149579	2583.	150684	2630.	151577	2677.	152550	2724.	153662
2537.	149643	2584.	150715	2631.	151604	2678.	152574	2725.	153687
2538.	149654	2585.	150727	2632.	151610	2679.	152619	2726.	153695
2539.	149655	2586.	150734	2633.	151621	2680.	152690	2727.	153706
2540.	149659	2587.	150743	2634.	151641	2681.	152695	2728.	153707
2541.	149678	2588.	150843	2635.	151695	2682.	152728	2729.	153796
2542.	149682	2589.	150905	2636.	151720	2683.	152739	2730.	153822
2543.	149723	2590.	150906	2637.	151753	2684.	152773	2731.	153869
2544.	149724	2591.	150910	2638.	151755	2685.	152776	2732.	153876
2545.	149748	2592.	150966	2639.	151767	2686.	152824	2733.	153878
2546.	149821	2593.	151010	2640.	151778	2687.	152838	2734.	153924
2547.	149899	2594.	151025	2641.	151796	2688.	152892	2735.	154003
2548.	149922	2595.	151028	2642.	151869	2689.	152898	2736.	154039
2549.	149931	2596.	151058	2643.	151886	2690.	152940	2737.	154050
2550.	149946	2597.	151064	2644.	151891	2691.	152949	2738.	154090
2551.	149961	2598.	151076	2645.	151899	2692.	152957	2739.	154093
2552.	149964	2599.	151097	2646.	151907	2693.	152979	2740.	154100
2553.	149977	2600.	151103	2647.	151916	2694.	152982	2741.	154112
2554.	150056	2601.	151105	2648.	151926	2695.	153002	2742.	154125
2555.	150082	2602.	151113	2649.	151931	2696.	153010	2743.	154171
2556.	150099	2603.	151116	2650.	151944	2697.	153012	2744.	154176
2557.	150100	2604.	151138	2651.	151993	2698.	153065	2745.	154218

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
2746.	154223	2793.	155366	2840.	156425	2887.	157658	2934.	158882
2747.	154246	2794.	155391	2841.	156439	2888.	157764	2935.	158921
2748.	154290	2795.	155456	2842.	156485	2889.	157774	2936.	158935
2749.	154314	2796.	155509	2843.	156490	2890.	157809	2937.	158998
2750.	154364	2797.	155511	2844.	156513	2891.	157817	2938.	159004
2751.	154395	2798.	155550	2845.	156557	2892.	157839	2939.	159050
2752.	154412	2799.	155627	2846.	156559	2893.	157904	2940.	159062
2753.	154448	2800.	155640	2847.	156617	2894.	157907	2941.	159139
2754.	154498	2801.	155651	2848.	156631	2895.	157912	2942.	159142
2755.	154508	2802.	155672	2849.	156651	2896.	157914	2943.	159147
2756.	154525	2803.	155693	2850.	156652	2897.	157937	2944.	159168
2757.	154541	2804.	155715	2851.	156668	2898.	157951	2945.	159201
2758.	154589	2805.	155735	2852.	156724	2899.	158067	2946.	159233
2759.	154604	2806.	155752	2853.	156757	2900.	158082	2947.	159271
2760.	154622	2807.	155772	2854.	156765	2901.	158092	2948.	159287
2761.	154625	2808.	155780	2855.	156769	2902.	158119	2949.	159288
2762.	154678	2809.	155785	2856.	156791	2903.	158134	2950.	159310
2763.	154696	2810.	155845	2857.	156794	2904.	158137	2951.	159319
2764.	154699	2811.	155850	2858.	156795	2905.	158146	2952.	159331
2765.	154764	2812.	155868	2859.	156802	2906.	158152	2953.	159350
2766.	154817	2813.	155873	2860.	156953	2907.	158267	2954.	159382
2767.	154865	2814.	155878	2861.	156971	2908.	158278	2955.	159389
2768.	154893	2815.	155883	2862.	156973	2909.	158289	2956.	159411
2769.	154894	2816.	155890	2863.	156989	2910.	158311	2957.	159434
2770.	154904	2817.	155918	2864.	156995	2911.	158328	2958.	159452
2771.	154916	2818.	155932	2865.	157045	2912.	158352	2959.	159520
2772.	154922	2819.	155934	2866.	157084	2913.	158395	2960.	159542
2773.	154951	2820.	155940	2867.	157134	2914.	158423	2961.	159546
2774.	154964	2821.	155955	2868.	157162	2915.	158427	2962.	159556
2775.	155003	2822.	155968	2869.	157178	2916.	158486	2963.	159574
2776.	155086	2823.	155975	2870.	157184	2917.	158518	2964.	159582
2777.	155098	2824.	155991	2871.	157245	2918.	158527	2965.	159606
2778.	155129	2825.	156053	2872.	157281	2919.	158556	2966.	159622
2779.	155161	2826.	156097	2873.	157327	2920.	158577	2967.	159667
2780.	155170	2827.	156103	2874.	157345	2921.	158603	2968.	159680
2781.	155192	2828.	156180	2875.	157354	2922.	158619	2969.	159683
2782.	155222	2829.	156187	2876.	157361	2923.	158621	2970.	159733
2783.	155223	2830.	156201	2877.	157366	2924.	158639	2971.	159747
2784.	155243	2831.	156202	2878.	157410	2925.	158646	2972.	159772
2785.	155257	2832.	156259	2879.	157414	2926.	158669	2973.	159775
2786.	155264	2833.	156262	2880.	157431	2927.	158673	2974.	159832
2787.	155312	2834.	156294	2881.	157508	2928.	158686	2975.	159888
2788.	155340	2835.	156308	2882.	157509	2929.	158712	2976.	159903
2789.	155352	2836.	156345	2883.	157510	2930.	158733	2977.	159950
2790.	155354	2837.	156369	2884.	157519	2931.	158793	2978.	159953
2791.	155355	2838.	156412	2885.	157553	2932.	158794	2979.	159961
2792.	155360	2839.	156423	2886.	157617	2933.	158830	2980.	159970

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
2981.	159979	3027.	160867	3074.	161879	3121.	162922	3168.	164150
2982.	160037	3028.	160920	3075.	161883	3122.	162973	3169.	164199
2983.	160063	3029.	160938	3076.	161895	3123.	163002	3170.	164201
2984.	160065	3030.	160944	3077.	161906	3124.	163012	3171.	164205
2985.	160068	3031.	161005	3078.	161915	3125.	163022	3172.	164236
2986.	160073	3032.	161027	3079.	161928	3126.	163041	3173.	164241
2987.	160116	3033.	161082	3080.	161946	3127.	163094	3174.	164262
2988.	160118	3034.	161117	3081.	161974	3128.	163096	3175.	164320
2989.	160130	3035.	161127	3082.	161999	3129.	163136	3176.	164341
2990.	160137	3036.	161167	3083.	162011	3130.	163138	3177.	164355
2991.	160167	3037.	161172	3084.	162039	3131.	163149	3178.	164358
2992.	160171	3038.	161181	3085.	162058	3132.	163197	3179.	164381
2993.	160173	3039.	161234	3086.	162095	3133.	163216	3180.	164383
2994.	160200	3040.	161251	3087.	162103	3134.	163220	3181.	164409
2995.	160205	3041.	161252	3088.	162129	3135.	163256	3182.	164464
2996.	160226	3042.	161309	3089.	162158	3136.	163261	3183.	164503
2997.	160230	3043.	161358	3090.	162160	3137.	163316	3184.	164517
2998.	160245	3044.	161361	3091.	162185	3138.	163323	3185.	164542
2999.	160272	3045.	161365	3092.	162197	3139.	163359	3186.	164576
3000.	160275	3046.	161425	3093.	162241	3140.	163361	3187.	164607
3001.	160304	3047.	161430	3094.	162254	3141.	163396	3188.	164640
3002.	160313	3048.	161447	3095.	162259	3142.	163397	3189.	164655
3003.	160343	3049.	161494	3096.	162271	3143.	163405	3190.	164693
3004.	160388	3050.	161504	3097.	162281	3144.	163424	3191.	164744
3005.	160409	3051.	161528	3098.	162344	3145.	163430	3192.	164766
3006.	160474	3052.	161531	3099.	162364	3146.	163480	3193.	164778
3007.	160500	3053.	161543	3100.	162378	3147.	163554	3194.	164783
3008.	160542	3054.	161546	3101.	162396	3148.	163594	3195.	164811
3009.	160567	3055.	161557	3102.	162416	3149.	163619	3196.	164827
3010.	160570	3056.	161569	3103.	162424	3150.	163629	3197.	164835
3011.	160597	3057.	161581	3104.	162433	3151.	163656	3198.	164836
3012.	160614	3058.	161596	3105.	162449	3152.	163661	3199.	164838
3013.	160626	3059.	161606	3106.	162461	3153.	163678	3200.	164865
3014.	160645	3060.	161627	3107.	162500	3154.	163699	3201.	164870
3015.	160698	3061.	161740	3108.	162511	3155.	163741	3202.	164888
3016.	160699	3062.	161743	3109.	162516	3156.	163762	3203.	164915
3017.	160704	3063.	161750	3110.	162542	3157.	163835	3204.	164942
3018.	160713	3064.	161754	3111.	162594	3158.	163871	3205.	164958
3019.	160714	3065.	161763	3112.	162684	3159.	163894	3206.	164965
3020.	160718	3066.	161787	3113.	162694	3160.	163927	3207.	164969
3021.	160772	3067.	161804	3114.	162734	3161.	163931	3208.	164970
3022.	160796	3068.	161816	3115.	162758	3162.	163941	3209.	165059
3023.	160805	3069.	161823	3116.	162775	3163.	163973	3210.	165068
3024.	160824	3070.	161845	3117.	162778	3164.	164005	3211.	165159
3025.	160854	3071.	161857	3118.	162809	3165.	164009	3212.	165161
3026.	160862	3072.	161865	3119.	162813	3166.	164031	3213.	165168
		3073.	161873	3120.	162878	3167.	164085	3214.	165192

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
3215.	165221	3262.	166405	3309.	167663	3356.	168581	3403.	169657
3216.	165266	3263.	166491	3310.	167679	3357.	168588	3404.	169681
3217.	165338	3264.	166493	3311.	167687	3358.	168599	3405.	169704
3218.	165344	3265.	166540	3312.	167699	3359.	168641	3406.	169716
3219.	165349	3266.	166551	3313.	167701	3360.	168644	3407.	169760
3220.	165350	3267.	166557	3314.	167706	3361.	168650	3408.	169792
3221.	165356	3268.	166570	3315.	167720	3362.	168673	3409.	169811
3222.	165363	3269.	166607	3316.	167749	3363.	168677	3410.	169840
3223.	165378	3270.	166622	3317.	167756	3364.	168680	3411.	169872
3224.	165384	3271.	166627	3318.	167776	3365.	168719	3412.	169890
3225.	165436	3272.	166668	3319.	167789	3366.	168723	3413.	169893
3226.	165456	3273.	166676	3320.	167813	3367.	168745	3414.	169913
3227.	165495	3274.	166677	3321.	167841	3368.	168758	3415.	169943
3228.	165526	3275.	166705	3322.	167851	3369.	168817	3416.	169973
3229.	165555	3276.	166708	3323.	167880	3370.	168828	3417.	170030
3230.	165575	3277.	166709	3324.	167889	3371.	168831	3418.	170049
3231.	165579	3278.	166754	3325.	167945	3372.	168848	3419.	170061
3232.	165592	3279.	166802	3326.	167954	3373.	168872	3420.	170074
3233.	165602	3280.	166807	3327.	167964	3374.	168900	3421.	170081
3234.	165612	3281.	166810	3328.	167979	3375.	168938	3422.	170087
3235.	165613	3282.	166826	3329.	167996	3376.	168947	3423.	170225
3236.	165622	3283.	166827	3330.	167999	3377.	168957	3424.	170253
3237.	165627	3284.	166877	3331.	168013	3378.	169024	3425.	170288
3238.	165648	3285.	166917	3332.	168028	3379.	169026	3426.	170295
3239.	165755	3286.	166921	3333.	168033	3380.	169037	3427.	170333
3240.	165771	3287.	166946	3334.	168051	3381.	169068	3428.	170352
3241.	165786	3288.	166951	3335.	168105	3382.	169118	3429.	170358
3242.	165795	3289.	166991	3336.	168123	3383.	169134	3430.	170433
3243.	165812	3290.	166995	3337.	168173	3384.	169136	3431.	170437
3244.	165813	3291.	167056	3338.	168204	3385.	169149	3432.	170441
3245.	165817	3292.	167070	3339.	168220	3386.	169163	3433.	170447
3246.	165820	3293.	167097	3340.	168229	3387.	169172	3434.	170459
3247.	165934	3294.	167119	3341.	168244	3388.	169243	3435.	170465
3248.	165945	3295.	167142	3342.	168248	3389.	169250	3436.	170521
3249.	166000	3296.	167152	3343.	168252	3390.	169268	3437.	170534
3250.	166068	3297.	167155	3344.	168259	3391.	169311	3438.	170536
3251.	166119	3298.	167167	3345.	168274	3392.	169345	3439.	170593
3252.	166157	3299.	167180	3346.	168309	3393.	169349	3440.	170606
3253.	166165	3300.	167231	3347.	168313	3394.	169364	3441.	170609
3254.	166196	3301.	167243	3348.	168377	3395.	169388	3442.	170628
3255.	166199	3302.	167258	3349.	168408	3396.	169449	3443.	170756
3256.	166200	3303.	167317	3350.	168524	3397.	169469	3444.	170790
3257.	166214	3304.	167438	3351.	168534	3398.	169479	3445.	170828
3258.	166218	3305.	167493	3352.	168550	3399.	169530	3446.	170864
3259.	166310	3306.	167554	3353.	168567	3400.	169532	3447.	170878
3260.	166315	3307.	167625	3354.	168570	3401.	169555	3448.	170881
3261.	166370	3308.	167655	3355.	168579	3402.	169586	3449.	170897

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
3450.	170929	3497.	171726	3544.	172744	3591.	173631	3638.	174715
3451.	170943	3498.	171749	3545.	172766	3592.	173633	3639.	174718
3452.	170947	3499.	171750	3546.	172796	3593.	173638	3640.	174720
3453.	170980	3500.	171752	3547.	172821	3594.	173716	3641.	174721
3454.	170988	3501.	171765	3548.	172822	3595.	173717	3642.	174728
3455.	171019	3502.	171781	3549.	172823	3596.	173738	3643.	174734
3456.	171020	3503.	171795	3550.	172828	3597.	173745	3644.	174736
3457.	171035	3504.	171819	3551.	172841	3598.	173770	3645.	174754
3458.	171038	3505.	171834	3552.	172842	3599.	173794	3646.	174773
3459.	171094	3506.	171869	3553.	172861	3600.	173801	3647.	174789
3460.	171097	3507.	171878	3554.	172895	3601.	173846	3648.	174798
3461.	171140	3508.	171887	3555.	172905	3602.	173853	3649.	174812
3462.	171165	3509.	171927	3556.	172906	3603.	173859	3650.	174854
3463.	171166	3510.	171979	3557.	172943	3604.	173888	3651.	174872
3464.	171175	3511.	172003	3558.	172946	3605.	173901	3652.	174877
3465.	171180	3512.	172038	3559.	172965	3606.	173913	3653.	174893
3466.	171200	3513.	172041	3560.	172975	3607.	173982	3654.	174909
3467.	171209	3514.	172060	3561.	172987	3608.	173990	3655.	174913
3468.	171211	3515.	172118	3562.	173004	3609.	173995	3656.	174917
3469.	171233	3516.	172126	3563.	173016	3610.	174006	3657.	174926
3470.	171306	3517.	172187	3564.	173022	3611.	174037	3658.	174937
3471.	171320	3518.	172222	3565.	173048	3612.	174086	3659.	174942
3472.	171330	3519.	172231	3566.	173053	3613.	174135	3660.	174955
3473.	171331	3520.	172269	3567.	173057	3614.	174168	3661.	174956
3474.	171339	3521.	172284	3568.	173058	3615.	174172	3662.	174957
3475.	171340	3522.	172304	3569.	173088	3616.	174185	3663.	174967
3476.	171372	3523.	172313	3570.	173108	3617.	174226	3664.	175026
3477.	171398	3524.	172380	3571.	173138	3618.	174231	3665.	175083
3478.	171414	3525.	172420	3572.	173183	3619.	174254	3666.	175100
3479.	171436	3526.	172443	3573.	173188	3620.	174268	3667.	175101
3480.	171454	3527.	172445	3574.	173210	3621.	174280	3668.	175121
3481.	171472	3528.	172456	3575.	173238	3622.	174293	3669.	175142
3482.	171484	3529.	172467	3576.	173276	3623.	174303	3670.	175147
3483.	171502	3530.	172468	3577.	173300	3624.	174327	3671.	175190
3484.	171519	3531.	172494	3578.	173344	3625.	174392	3672.	175225
3485.	171528	3532.	172520	3579.	173370	3626.	174410	3673.	175230
3486.	171533	3533.	172522	3580.	173396	3627.	174421	3674.	175246
3487.	171560	3534.	172525	3581.	173428	3628.	174434	3675.	175255
3488.	171574	3535.	172552	3582.	173441	3629.	174460	3676.	175332
3489.	171581	3536.	172574	3583.	173454	3630.	174468	3677.	175362
3490.	171588	3537.	172580	3584.	173494	3631.	174564	3678.	175378
3491.	171606	3538.	172591	3585.	173522	3632.	174596	3679.	175394
3492.	171617	3539.	172646	3586.	173535	3633.	174618	3680.	175448
3493.	171649	3540.	172689	3587.	173579	3634.	174649	3681.	175466
3494.	171695	3541.	172712	3588.	173591	3635.	174654	3682.	175492
3495.	171714	3542.	172728	3589.	173601	3636.	174670	3683.	175521
3496.	171717	3543.	172732	3590.	173627	3637.	174685	3684.	175536

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
3685.	175557	3732.	176495	3779.	177524	3826.	178454	3873.	179464
3686.	175574	3733.	176517	3780.	177527	3827.	178489	3874.	179517
3687.	175590	3734.	176518	3781.	177555	3828.	178511	3875.	179520
3688.	175596	3735.	176548	3782.	177590	3829.	178521	3876.	179546
3689.	175610	3736.	176558	3783.	177626	3830.	178540	3877.	179550
3690.	175627	3737.	176640	3784.	177647	3831.	178544	3878.	179555
3691.	175642	3738.	176645	3785.	177650	3832.	178619	3879.	179590
3692.	175656	3739.	176646	3786.	177653	3833.	178634	3880.	179640
3693.	175690	3740.	176721	3787.	177658	3834.	178652	3881.	179667
3694.	175695	3741.	176728	3788.	177674	3835.	178668	3882.	179668
3695.	175732	3742.	176730	3789.	177686	3836.	178678	3883.	179685
3696.	175738	3743.	176733	3790.	177688	3837.	178709	3884.	179719
3697.	175770	3744.	176741	3791.	177717	3838.	178732	3885.	179816
3698.	175854	3745.	176768	3792.	177748	3839.	178753	3886.	179858
3699.	175862	3746.	176782	3793.	177751	3840.	178754	3887.	179866
3700.	175863	3747.	176842	3794.	177756	3841.	178755	3888.	179870
3701.	175881	3748.	176855	3795.	177796	3842.	178810	3889.	179871
3702.	175905	3749.	176858	3796.	177803	3843.	178822	3890.	179896
3703.	175912	3750.	176887	3797.	177865	3844.	178846	3891.	179959
3704.	175951	3751.	176898	3798.	177889	3845.	178870	3892.	180005
3705.	175957	3752.	176904	3799.	177925	3846.	178876	3893.	180012
3706.	175978	3753.	176906	3800.	177931	3847.	178920	3894.	180090
3707.	175993	3754.	176931	3801.	177949	3848.	178941	3895.	180097
3708.	175998	3755.	176940	3802.	178013	3849.	178972	3896.	180137
3709.	176016	3756.	176959	3803.	178046	3850.	179044	3897.	180157
3710.	176020	3757.	177006	3804.	178063	3851.	179103	3898.	180201
3711.	176021	3758.	177041	3805.	178079	3852.	179134	3899.	180305
3712.	176028	3759.	177043	3806.	178091	3853.	179137	3900.	180308
3713.	176060	3760.	177053	3807.	178103	3854.	179141	3901.	180325
3714.	176093	3761.	177068	3808.	178116	3855.	179154	3902.	180384
3715.	176096	3762.	177099	3809.	178131	3856.	179163	3903.	180398
3716.	176104	3763.	177103	3810.	178181	3857.	179168	3904.	180443
3717.	176129	3764.	177109	3811.	178185	3858.	179173	3905.	180511
3718.	176169	3765.	177110	3812.	178205	3859.	179190	3906.	180525
3719.	176237	3766.	177150	3813.	178208	3860.	179201	3907.	180538
3720.	176291	3767.	177170	3814.	178229	3861.	179214	3908.	180575
3721.	176312	3768.	177187	3815.	178231	3862.	179223	3909.	180603
3722.	176313	3769.	177227	3816.	178252	3863.	179256	3910.	180666
3723.	176359	3770.	177249	3817.	178330	3864.	179262	3911.	180730
3724.	176361	3771.	177260	3818.	178347	3865.	179270	3912.	180734
3725.	176379	3772.	177299	3819.	178353	3866.	179312	3913.	180762
3726.	176394	3773.	177303	3820.	178378	3867.	179333	3914.	180764
3727.	176399	3774.	177316	3821.	178382	3868.	179383	3915.	180885
3728.	176406	3775.	177377	3822.	178401	3869.	179397	3916.	180895
3729.	176413	3776.	177509	3823.	178402	3870.	179399	3917.	180981
3730.	176450	3777.	177515	3824.	178427	3871.	179448	3918.	180987
3731.	176455	3778.	177519	3825.	178437	3872.	179452	3919.	180996

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
3920.	181074	3967.	182290	4014.	183813	4061.	185613	4108.	187410
3921.	181091	3968.	182323	4015.	183946	4062.	185692	4109.	187470
3922.	181100	3969.	182394	4016.	183949	4063.	185711	4110.	187478
3923.	181102	3970.	182418	4017.	183975	4064.	185778	4111.	187495
3924.	181153	3971.	182438	4018.	184004	4065.	185804	4112.	187548
3925.	181168	3972.	182466	4019.	184019	4066.	185860	4113.	187663
3926.	181175	3973.	182495	4020.	184070	4067.	185882	4114.	187667
3927.	181177	3974.	182601	4021.	184112	4068.	185893	4115.	187700
3928.	181222	3975.	182636	4022.	184164	4069.	185926	4116.	187804
3929.	181269	3976.	182646	4023.	184276	4070.	185957	4117.	187809
3930.	181282	3977.	182685	4024.	184305	4071.	186009	4118.	187845
3931.	181320	3978.	182710	4025.	184482	4072.	186016	4119.	187866
3932.	181379	3979.	182773	4026.	184535	4073.	186082	4120.	187904
3933.	181385	3980.	182868	4027.	184562	4074.	186156	4121.	188062
3934.	181477	3981.	182877	4028.	184574	4075.	186162	4122.	188070
3935.	181486	3982.	182878	4029.	184677	4076.	186209	4123.	188082
3936.	181528	3983.	182889	4030.	184692	4077.	186214	4124.	188118
3937.	181546	3984.	182905	4031.	184702	4078.	186229	4125.	188149
3938.	181558	3985.	182923	4032.	184703	4079.	186246	4126.	188174
3939.	181611	3986.	182990	4033.	184728	4080.	186262	4127.	188175
3940.	181643	3987.	183014	4034.	184733	4081.	186293	4128.	188176
3941.	181652	3988.	183038	4035.	184743	4082.	186298	4129.	188178
3942.	181691	3989.	183083	4036.	184765	4083.	186395	4130.	188214
3943.	181699	3990.	183113	4037.	184840	4084.	186403	4131.	188262
3944.	181711	3991.	183132	4038.	184857	4085.	186404	4132.	188410
3945.	181714	3992.	183144	4039.	184880	4086.	186417	4133.	188460
3946.	181724	3993.	183179	4040.	184920	4087.	186509	4134.	188493
3947.	181751	3994.	183225	4041.	184952	4088.	186543	4135.	188529
3948.	181778	3995.	183241	4042.	184960	4089.	186605	4136.	188608
3949.	181828	3996.	183272	4043.	184980	4090.	186711	4137.	188651
3950.	181841	3997.	183280	4044.	184993	4091.	186722	4138.	188721
3951.	181844	3998.	183292	4045.	185005	4092.	186771	4139.	188780
3952.	181857	3999.	183300	4046.	185011	4093.	186795	4140.	188798
3953.	181928	4000.	183305	4047.	185019	4094.	186826	4141.	188801
3954.	181939	4001.	183319	4048.	185020	4095.	186843	4142.	188817
3955.	181970	4002.	183368	4049.	185117	4096.	186913	4143.	188889
3956.	181976	4003.	183389	4050.	185141	4097.	186929	4144.	188961
3957.	182037	4004.	183405	4051.	185149	4098.	186963	4145.	188978
3958.	182090	4005.	183458	4052.	185283	4099.	186966	4146.	188981
3959.	182122	4006.	183481	4053.	185318	4100.	187110	4147.	189017
3960.	182154	4007.	183543	4054.	185327	4101.	187120	4148.	189031
3961.	182165	4008.	183550	4055.	185342	4102.	187145	4149.	189079
3962.	182167	4009.	183624	4056.	185373	4103.	187173	4150.	189099
3963.	182217	4010.	183627	4057.	185388	4104.	187177	4151.	189114
3964.	182223	4011.	183674	4058.	185393	4105.	187247	4152.	189119
3965.	182241	4012.	183726	4059.	185399	4106.	187336	4153.	189173
3966.	182248	4013.	183791	4060.	185516	4107.	187383	4154.	189183

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
4155.	189312	4202.	191084	4249.	192463	4296.	193768	4343.	194719
4156.	189378	4203.	191106	4250.	192466	4297.	193784	4344.	194725
4157.	189416	4204.	191210	4251.	192479	4298.	193803	4345.	194732
4158.	189420	4205.	191295	4252.	192501	4299.	193824	4346.	194737
4159.	189470	4206.	191333	4253.	192512	4300.	193850	4347.	194803
4160.	189496	4207.	191350	4254.	192545	4301.	193855	4348.	194810
4161.	189503	4208.	191355	4255.	192553	4302.	193856	4349.	194851
4162.	189539	4209.	191357	4256.	192601	4303.	193859	4350.	194853
4163.	189606	4210.	191399	4257.	192607	4304.	193873	4351.	194863
4164.	189643	4211.	191403	4258.	192619	4305.	193881	4352.	194869
4165.	189687	4212.	191459	4259.	192620	4306.	193907	4353.	194889
4166.	189732	4213.	191466	4260.	192675	4307.	193941	4354.	194909
4167.	189737	4214.	191477	4261.	192698	4308.	194024	4355.	194911
4168.	189838	4215.	191510	4262.	192755	4309.	194050	4356.	194938
4169.	189855	4216.	191607	4263.	192763	4310.	194082	4357.	194940
4170.	189874	4217.	191625	4264.	192794	4311.	194111	4358.	194991
4171.	189904	4218.	191626	4265.	192832	4312.	194115	4359.	195000
4172.	189957	4219.	191674	4266.	192880	4313.	194159	4360.	195013
4173.	190011	4220.	191698	4267.	192881	4314.	194175	4361.	195046
4174.	190012	4221.	191725	4268.	192939	4315.	194176	4362.	195047
4175.	190013	4222.	191756	4269.	192953	4316.	194196	4363.	195051
4176.	190191	4223.	191777	4270.	193043	4317.	194197	4364.	195063
4177.	190211	4224.	191812	4271.	193062	4318.	194222	4365.	195088
4178.	190311	4225.	191821	4272.	193064	4319.	194223	4366.	195098
4179.	190346	4226.	191868	4273.	193122	4320.	194278	4367.	195109
4180.	190415	4227.	192044	4274.	193134	4321.	194282	4368.	195120
4181.	190433	4228.	192052	4275.	193158	4322.	194313	4369.	195128
4182.	190448	4229.	192063	4276.	193211	4323.	194345	4370.	195190
4183.	190450	4230.	192067	4277.	193222	4324.	194363	4371.	195222
4184.	190455	4231.	192082	4278.	193230	4325.	194372	4372.	195225
4185.	190536	4232.	192142	4279.	193242	4326.	194385	4373.	195335
4186.	190545	4233.	192154	4280.	193254	4327.	194394	4374.	195350
4187.	190554	4234.	192175	4281.	193285	4328.	194430	4375.	195354
4188.	190574	4235.	192194	4282.	193287	4329.	194450	4376.	195356
4189.	190631	4236.	192200	4283.	193365	4330.	194454	4377.	195359
4190.	190671	4237.	192203	4284.	193410	4331.	194459	4378.	195385
4191.	190729	4238.	192218	4285.	193455	4332.	194466	4379.	195390
4192.	190766	4239.	192249	4286.	193481	4333.	194504	4380.	195397
4193.	190772	4240.	192272	4287.	193544	4334.	194554	4381.	195402
4194.	190799	4241.	192293	4288.	193584	4335.	194556	4382.	195408
4195.	190803	4242.	192352	4289.	193598	4336.	194586	4383.	195433
4196.	190914	4243.	192365	4290.	193603	4337.	194624	4384.	195438
4197.	190951	4244.	192390	4291.	193626	4338.	194656	4385.	195457
4198.	190971	4245.	192394	4292.	193648	4339.	194660	4386.	195459
4199.	191012	4246.	192410	4293.	193663	4340.	194667	4387.	195474
4200.	191023	4247.	192441	4294.	193681	4341.	194701	4388.	195495
4201.	191062	4248.	192457	4295.	193762	4342.	194703	4389.	195511

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
4390.	195558	4437.	196798	4484.	198007	4531.	199338	4578.	201045
4391.	195561	4438.	196829	4485.	198030	4532.	199343	4579.	201061
4392.	195575	4439.	196848	4486.	198045	4533.	199353	4580.	201065
4393.	195595	4440.	196862	4487.	198061	4534.	199368	4581.	201088
4394.	195664	4441.	196866	4488.	198062	4535.	199377	4582.	201161
4395.	195701	4442.	196889	4489.	198067	4536.	199456	4583.	201208
4396.	195704	4443.	196922	4490.	198109	4537.	199509	4584.	201231
4397.	195722	4444.	196954	4491.	198137	4538.	199518	4585.	201235
4398.	195729	4445.	196959	4492.	198149	4539.	199572	4586.	201268
4399.	195750	4446.	196996	4493.	198224	4540.	199610	4587.	201304
4400.	195773	4447.	197021	4494.	198255	4541.	199754	4588.	201330
4401.	195823	4448.	197049	4495.	198348	4542.	199762	4589.	201331
4402.	195867	4449.	197137	4496.	198377	4543.	199780	4590.	201356
4403.	195968	4450.	197145	4497.	198436	4544.	199792	4591.	201379
4404.	196016	4451.	197197	4498.	198455	4545.	199842	4592.	201383
4405.	196049	4452.	197255	4499.	198488	4546.	199844	4593.	201433
4406.	196120	4453.	197275	4500.	198547	4547.	199868	4594.	201439
4407.	196126	4454.	197340	4501.	198571	4548.	199904	4595.	201463
4408.	196132	4455.	197356	4502.	198576	4549.	199945	4596.	201485
4409.	196162	4456.	197358	4503.	198581	4550.	199976	4597.	201511
4410.	196165	4457.	197367	4504.	198586	4551.	200025	4598.	201563
4411.	196210	4458.	197379	4505.	198597	4552.	200034	4599.	201582
4412.	196216	4459.	197421	4506.	198602	4553.	200122	4600.	201610
4413.	196243	4460.	197497	4507.	198617	4554.	200162	4601.	201716
4414.	196291	4461.	197533	4508.	198658	4555.	200203	4604.	201775
4415.	196310	4462.	197537	4509.	198748	4556.	200207	4605.	201796
4416.	196343	4463.	197646	4510.	198782	4557.	200248	4606.	201822
4417.	196415	4464.	197651	4511.	198794	4558.	200261	4607.	201834
4418.	196420	4465.	197675	4512.	198805	4559.	200286	4608.	201873
4419.	196433	4466.	197688	4513.	198817	4560.	200322	4609.	201919
4420.	196458	4467.	197706	4514.	198832	4561.	200376	4610.	201963
4421.	196540	4468.	197738	4515.	198869	4562.	200388	4611.	201973
4422.	196542	4469.	197767	4516.	198878	4563.	200437	4612.	201978
4423.	196548	4470.	197779	4517.	198907	4564.	200460	4613.	201995
4424.	196576	4471.	197815	4518.	198940	4565.	200467	4614.	202004
4425.	196607	4472.	197826	4519.	198967	4566.	200553	4615.	202072
4426.	196617	4473.	197851	4520.	198979	4567.	200588	4616.	202092
4427.	196637	4474.	197852	4521.	199019	4568.	200629	4617.	202117
4428.	196646	4475.	197858	4522.	199073	4569.	200674	4618.	202127
4429.	196671	4476.	197867	4523.	199088	4570.	200761	4619.	202142
4430.	196688	4477.	197886	4524.	199137	4571.	200798	4620.	202150
4431.	196747	4478.	197905	4525.	199153	4572.	200821	4621.	202166
4432.	196751	4479.	197912	4526.	199159	4573.	200901	4622.	202201
4433.	196754	4480.	197919	4527.	199166	4574.	200938	4623.	202245
4434.	196758	4481.	197931	4528.	199236	4575.	200946	4624.	202257
4435.	196776	4482.	197948	4529.	199255	4576.	200953	4625.	202315
4436.	196783	4483.	197956	4530.	199288	4577.	201018	4626.	202318

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
4627.	202362	4674.	203932	4721.	205065	4768.	206630	4815.	207811
4628.	202369	4675.	203955	4722.	205077	4769.	206651	4816.	207822
4629.	202407	4676.	203977	4723.	205109	4770.	206652	4817.	207844
4630.	202411	4677.	204038	4724.	205116	4771.	206668	4818.	207879
4631.	202417	4678.	204048	4725.	205151	4772.	206669	4819.	207888
4632.	202422	4679.	204056	4726.	205179	4773.	206677	4820.	207891
4633.	202439	4680.	204086	4727.	205182	4774.	206846	4821.	207934
4634.	202486	4681.	204091	4728.	205202	4775.	206900	4822.	207976
4635.	202532	4682.	204156	4729.	205317	4776.	206910	4823.	207981
4636.	202576	4683.	204158	4730.	205434	4777.	206912	4824.	208008
4637.	202605	4684.	204186	4731.	205454	4778.	206921	4825.	208030
4638.	202627	4685.	204210	4732.	205461	4779.	206999	4826.	208096
4639.	202640	4686.	204220	4733.	205462	4780.	207005	4827.	208181
4640.	202642	4687.	204243	4734.	205468	4781.	207017	4828.	208187
4641.	202643	4688.	204276	4735.	205516	4782.	207024	4829.	208266
4642.	202667	4689.	204293	4736.	205577	4783.	207078	4830.	208273
4643.	202687	4690.	204402	4737.	205584	4784.	207153	4831.	208308
4644.	202698	4691.	204437	4738.	205626	4785.	207180	4832.	208331
4645.	202751	4692.	204453	4739.	205635	4786.	207185	4833.	208334
4646.	202781	4693.	204485	4740.	205667	4787.	207191	4834.	208371
4647.	202782	4694.	204509	4741.	205713	4788.	207192	4835.	208425
4648.	202810	4695.	204510	4742.	205740	4789.	207205	4836.	208458
4649.	202821	4696.	204521	4743.	205744	4790.	207207	4837.	208471
4650.	202825	4697.	204530	4744.	205809	4791.	207229	4838.	208477
4651.	202840	4698.	204568	4745.	205841	4792.	207268	4839.	208552
4652.	202851	4699.	204577	4746.	205879	4793.	207301	4840.	208585
4653.	202861	4700.	204587	4747.	205889	4794.	207365	4841.	208588
4654.	202907	4701.	204608	4748.	205904	4795.	207397	4842.	208591
4655.	203022	4702.	204619	4749.	205935	4796.	207456	4843.	208597
4656.	203032	4703.	204622	4750.	205971	4797.	207472	4844.	208600
4657.	203048	4704.	204671	4751.	206089	4798.	207481	4845.	208662
4658.	203102	4705.	204702	4752.	206194	4799.	207483	4846.	208674
4659.	203110	4706.	204724	4753.	206246	4800.	207515	4847.	208688
4660.	203112	4707.	204743	4754.	206356	4801.	207555	4848.	208722
4661.	203142	4708.	204745	4755.	206391	4802.	207558	4849.	208748
4662.	203168	4709.	204761	4756.	206396	4803.	207585	4850.	208783
4663.	203230	4710.	204783	4757.	206417	4804.	207655	4851.	208794
4664.	203231	4711.	204792	4758.	206420	4805.	207672	4852.	208859
4665.	203236	4712.	204838	4759.	206450	4806.	207693	4853.	208861
4666.	203282	4713.	204899	4760.	206460	4807.	207696	4854.	208865
4667.	203306	4714.	204951	4761.	206465	4808.	207709	4855.	208883
4668.	203311	4715.	204952	4762.	206493	4809.	207727	4856.	208887
4669.	203425	4716.	204959	4763.	206497	4810.	207732	4857.	208888
4670.	203475	4717.	204972	4764.	206498	4811.	207746	4858.	208904
4671.	203564	4718.	204979	4765.	206530	4812.	207763	4859.	208914
4672.	203703	4719.	204998	4766.	206574	4813.	207764	4860.	208920
4673.	203808	4720.	205004	4767.	206629	4814.	207793	4861.	208935

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
4862.	208956	4909.	210457	4956.	211902	5003.	213076	5050.	214549
4863.	208960	4910.	210471	4957.	211928	5004.	213184	5051.	214572
4864.	208980	4911.	210494	4958.	211940	5005.	213242	5052.	214584
4865.	209022	4912.	210518	4959.	211962	5006.	213251	5053.	214728
4866.	209041	4913.	210521	4960.	211963	5007.	213259	5054.	214749
4867.	209097	4914.	210565	4961.	212001	5008.	213260	5055.	214854
4868.	209133	4915.	210578	4962.	212030	5009.	213397	5056.	214864
4869.	209141	4916.	210579	4963.	212040	5010.	213424	5057.	214868
4870.	209198	4917.	210598	4964.	212108	5011.	213449	5058.	214895
4871.	209215	4918.	210609	4965.	212118	5012.	213450	5059.	214896
4872.	209230	4919.	210645	4966.	212129	5013.	213489	5060.	214937
4873.	209242	4920.	210659	4967.	212144	5014.	213504	5061.	214988
4874.	209244	4921.	210702	4968.	212190	5015.	213543	5062.	215009
4875.	209271	4922.	210729	4969.	212211	5016.	213562	5063.	215059
4876.	209284	4923.	210750	4970.	212227	5017.	213627	5064.	215074
4877.	209288	4924.	210780	4971.	212255	5018.	213645	5065.	215166
4878.	209290	4925.	210789	4972.	212256	5019.	213658	5066.	215228
4879.	209291	4926.	210820	4973.	212285	5020.	213662	5067.	215265
4880.	209355	4927.	210915	4974.	212314	5021.	213684	5068.	215277
4881.	209406	4928.	210936	4975.	212331	5022.	213700	5069.	215282
4882.	209495	4929.	210941	4976.	212363	5023.	213742	5070.	215287
4883.	209518	4930.	210950	4977.	212383	5024.	213746	5071.	215302
4884.	209545	4931.	210953	4978.	212384	5025.	213808	5072.	215349
4885.	209562	4932.	210957	4979.	212657	5026.	213844	5073.	215374
4886.	209582	4933.	210996	4980.	212672	5027.	213860	5074.	215447
4887.	209613	4934.	211000	4981.	212727	5028.	213875	5075.	215455
4888.	209630	4935.	211020	4982.	212735	5029.	213904	5076.	215498
4889.	209640	4936.	211022	4983.	212741	5030.	213907	5077.	215523
4890.	209760	4937.	211077	4984.	212748	5031.	213914	5078.	215571
4891.	209781	4938.	211215	4985.	212759	5032.	213980	5079.	215585
4892.	209791	4939.	211226	4986.	212766	5033.	213997	5080.	215641
4893.	209792	4940.	211253	4987.	212772	5034.	214000	5081.	215646
4894.	209876	4941.	211257	4988.	212779	5035.	214016	5082.	215675
4895.	209886	4942.	211287	4989.	212793	5036.	214048	5083.	215759
4896.	209894	4943.	211289	4990.	212799	5037.	214055	5084.	215831
4897.	209905	4944.	211395	4991.	212834	5038.	214060	5085.	215834
4898.	209914	4945.	211398	4992.	212845	5039.	214067	5086.	215839
4899.	210014	4946.	211421	4993.	212853	5040.	214109	5087.	215845
4900.	210015	4947.	211526	4994.	212865	5041.	214202	5088.	215846
4901.	210034	4948.	211538	4995.	212884	5042.	214219	5089.	215856
4902.	210101	4949.	211567	4996.	212935	5043.	214282	5090.	215896
4903.	210105	4950.	211611	4997.	212936	5044.	214330	5091.	215907
4904.	210124	4951.	211676	4998.	212955	5045.	214332	5092.	215910
4905.	210220	4952.	211699	4999.	212973	5046.	214387	5093.	215921
4906.	210440	4953.	211739	5000.	212981	5047.	214392	5094.	215974
4907.	210441	4954.	211756	5001.	213001	5048.	214480	5095.	215984
4908.	210451	4955.	211871	5002.	213019	5049.	214516	5096.	216013

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
5097.	216043	5144.	217136	5191.	218347	5238.	219494	5285.	221001
5098.	216061	5145.	217144	5192.	218356	5239.	219525	5286.	221012
5099.	216105	5146.	217157	5193.	218396	5240.	219529	5287.	221024
5100.	216126	5147.	217169	5194.	218402	5241.	219561	5288.	221092
5101.	216130	5148.	217231	5195.	218406	5242.	219565	5289.	221123
5102.	216193	5149.	217277	5196.	218416	5243.	219575	5290.	221142
5103.	216205	5150.	217295	5197.	218418	5244.	219620	5291.	221165
5104.	216211	5151.	217305	5198.	218423	5245.	219636	5292.	221188
5105.	216217	5152.	217310	5199.	218465	5246.	219645	5293.	221216
5106.	216245	5153.	217335	5200.	218466	5247.	219698	5294.	221217
5107.	216249	5154.	217385	5201.	218496	5248.	219712	5295.	221234
5108.	216250	5155.	217428	5202.	218518	5249.	219751	5296.	221292
5109.	216262	5156.	217447	5203.	218522	5250.	219769	5297.	221389
5110.	216315	5157.	217452	5204.	218523	5251.	219846	5298.	221402
5111.	216321	5158.	217501	5205.	218543	5252.	219849	5299.	221406
5112.	216341	5159.	217521	5206.	218655	5253.	219853	5300.	221417
5113.	216351	5160.	217591	5207.	218666	5254.	219861	5301.	221418
5114.	216397	5161.	217592	5208.	218845	5255.	219885	5302.	221484
5115.	216398	5162.	217597	5209.	218883	5256.	219886	5303.	221543
5116.	216426	5163.	217601	5210.	218885	5257.	219905	5304.	221658
5117.	216427	5164.	217610	5211.	218887	5258.	220121	5305.	221685
5118.	216446	5165.	217614	5212.	218890	5259.	220202	5306.	221693
5119.	216530	5166.	217690	5213.	218923	5260.	220224	5307.	221735
5120.	216557	5167.	217724	5214.	218972	5261.	220225	5308.	221742
5121.	216586	5168.	217790	5215.	218994	5262.	220296	5309.	221926
5122.	216614	5169.	217855	5216.	219002	5263.	220317	5310.	221933
5123.	216616	5170.	217893	5217.	219033	5264.	220321	5311.	221934
5124.	216680	5171.	217925	5218.	219038	5265.	220425	5312.	221957
5125.	216692	5172.	217993	5219.	219041	5266.	220451	5313.	221962
5126.	216701	5173.	218006	5220.	219054	5267.	220512	5314.	221981
5127.	216738	5174.	218012	5221.	219063	5268.	220580	5315.	222007
5128.	216754	5175.	218045	5222.	219126	5269.	220597	5316.	222037
5129.	216760	5176.	218070	5223.	219131	5270.	220630	5317.	222071
5130.	216787	5177.	218086	5224.	219140	5271.	220663	5318.	222103
5131.	216792	5178.	218097	5225.	219164	5272.	220672	5319.	222131
5132.	216804	5179.	218114	5226.	219202	5273.	220720	5320.	222135
5133.	216813	5180.	218135	5227.	219216	5274.	220735	5321.	222161
5134.	216831	5181.	218150	5228.	219247	5275.	220752	5322.	222209
5135.	216871	5182.	218164	5229.	219273	5276.	220767	5323.	222238
5136.	216879	5183.	218179	5230.	219299	5277.	220783	5324.	222253
5137.	216900	5184.	218196	5231.	219309	5278.	220810	5325.	222294
5138.	216903	5185.	218230	5232.	219335	5279.	220814	5326.	222300
5139.	216904	5186.	218240	5233.	219367	5280.	220890	5327.	222311
5140.	216920	5187.	218305	5234.	219394	5281.	220902	5328.	222344
5141.	216999	5188.	218328	5235.	219427	5282.	220950	5329.	222348
5142.	217097	5189.	218336	5236.	219460	5283.	220990	5330.	222374
5143.	217115	5190.	218342	5237.	219489	5284.	220999	5331.	222387

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
5332.	222461	5379.	223720	5426.	225195	5473.	226592	5520.	228142
5333.	222529	5380.	223753	5427.	225302	5474.	226642	5521.	228208
5334.	222572	5381.	223820	5428.	225334	5475.	226666	5522.	228229
5335.	222579	5382.	223829	5429.	225340	5476.	226700	5523.	228239
5336.	222594	5383.	223838	5430.	225370	5477.	226722	5524.	228246
5337.	222617	5384.	223845	5431.	225386	5478.	226764	5525.	228282
5338.	222618	5385.	223847	5432.	225403	5479.	226774	5526.	228328
5339.	222621	5386.	223858	5433.	225405	5480.	226782	5527.	228335
5340.	222689	5387.	223886	5434.	225420	5481.	226822	5528.	228354
5341.	222709	5388.	223921	5435.	225425	5482.	226824	5529.	228441
5342.	222719	5389.	223940	5436.	225489	5483.	226892	5530.	228483
5343.	222788	5390.	223975	5437.	225506	5484.	226908	5531.	228484
5344.	222795	5391.	223995	5438.	225528	5485.	226984	5532.	228521
5345.	222820	5392.	223996	5439.	225576	5486.	227031	5533.	228584
5346.	222824	5393.	224016	5440.	225590	5487.	227078	5534.	228585
5347.	222837	5394.	224022	5441.	225622	5488.	227096	5535.	228597
5348.	222843	5395.	224026	5442.	225626	5489.	227135	5536.	228618
5349.	222847	5396.	224100	5443.	225641	5490.	227159	5537.	228671
5350.	222920	5397.	224185	5444.	225654	5491.	227178	5538.	228674
5351.	222952	5398.	224217	5445.	225658	5492.	227232	5539.	228696
5352.	222968	5399.	224304	5446.	225747	5493.	227302	5540.	228817
5353.	222992	5400.	224319	5447.	225764	5494.	227312	5541.	228875
5354.	223041	5401.	224320	5448.	225769	5495.	227321	5542.	228929
5355.	223067	5402.	224360	5449.	225772	5496.	227328	5543.	229042
5356.	223078	5403.	224424	5450.	225812	5497.	227335	5544.	229173
5357.	223086	5404.	224467	5451.	225838	5498.	227391	5545.	229181
5358.	223098	5405.	224472	5452.	225841	5499.	227437	5546.	229183
5359.	223148	5406.	224503	5453.	225865	5500.	227487	5547.	229275
5360.	223164	5407.	224561	5454.	225894	5501.	227550	5548.	229276
5361.	223185	5408.	224660	5455.	225936	5502.	227637	5549.	229284
5362.	223209	5409.	224710	5456.	225938	5503.	227674	5550.	229296
5363.	223256	5410.	224711	5457.	226009	5504.	227678	5551.	229335
5364.	223305	5411.	224762	5458.	226042	5505.	227696	5552.	229411
5365.	223346	5412.	224830	5459.	226090	5506.	227702	5553.	229415
5366.	223374	5413.	224855	5460.	226099	5507.	227820	5554.	229421
5367.	223379	5414.	224860	5461.	226107	5508.	227847	5555.	229432
5368.	223394	5415.	224918	5462.	226166	5509.	227908	5556.	229451
5369.	223438	5416.	224924	5463.	226173	5510.	227930	5557.	229456
5370.	223442	5417.	224949	5464.	226194	5511.	227955	5558.	229469
5371.	223531	5418.	224975	5465.	226201	5512.	227967	5559.	229543
5372.	223546	5419.	224991	5466.	226236	5513.	227976	5560.	229627
5373.	223627	5420.	225003	5467.	226312	5514.	228018	5561.	229645
5374.	223685	5421.	225014	5468.	226452	5515.	228049	5562.	229666
5375.	223691	5422.	225027	5469.	226480	5516.	228095	5563.	229765
5376.	223696	5423.	225049	5470.	226509	5517.	228105	5564.	229772
5377.	223710	5424.	225052	5471.	226526	5518.	228111	5565.	229833
5378.	223713	5425.	225133	5472.	226571	5519.	228141	5566.	229913

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
5567.	230041	5614.	232365	5661.	234767	5708.	235945	5755.	237025
5568.	230049	5615.	232530	5662.	234778	5709.	235965	5756.	237029
5569.	230175	5616.	232718	5663.	234779	5710.	235972	5757.	237088
5570.	230275	5617.	232724	5664.	234807	5711.	236004	5758.	237112
5571.	230353	5618.	232744	5665.	234827	5712.	236036	5759.	237122
5572.	230371	5619.	232859	5666.	234901	5713.	236058	5760.	237177
5573.	230529	5620.	232860	5667.	234905	5714.	236081	5761.	237186
5574.	230608	5621.	232875	5668.	234959	5715.	236101	5762.	237229
5575.	230684	5622.	232989	5669.	234985	5716.	236128	5763.	237247
5576.	230692	5623.	233020	5670.	235060	5717.	236194	5764.	237249
5577.	230707	5624.	233100	5671.	235061	5718.	236197	5765.	237301
5578.	230723	5625.	233110	5672.	235062	5719.	236219	5766.	237316
5579.	230774	5626.	233137	5673.	235107	5720.	236246	5767.	237335
5580.	230775	5627.	233165	5674.	235108	5721.	236289	5768.	237336
5581.	230853	5628.	233186	5675.	235133	5722.	236301	5769.	237433
5582.	230869	5629.	233272	5676.	235139	5723.	236306	5770.	237434
5583.	230895	5630.	233298	5677.	235294	5724.	236316	5771.	237538
5584.	230912	5631.	233395	5678.	235300	5725.	236371	5772.	237542
5585.	230918	5632.	233434	5679.	235308	5726.	236378	5773.	237552
5586.	231035	5633.	233513	5680.	235314	5727.	236404	5774.	237571
5537.	231091	5634.	233543	5681.	235376	5728.	236426	5775.	237587
5588.	231092	5635.	233580	5682.	235392	5729.	236435	5776.	237593
5589.	231130	5636.	233648	5683.	235467	5730.	236450	5777.	237623
5590.	231153	5637.	233764	5684.	235475	5731.	236464	5778.	237632
5591.	231154	5638.	233765	5685.	235505	5732.	236471	5779.	237662
5592.	231227	5639.	233792	5686.	235525	5733.	236523	5780.	237669
5593.	231281	5640.	233825	5687.	235561	5734.	236543	5781.	237673
5594.	231294	5641.	233965	5688.	235565	5735.	236552	5782.	237726
5595.	231351	5642.	234001	5689.	235578	5736.	236603	5783.	237734
5596.	231426	5643.	234091	5690.	235591	5737.	236645	5784.	237747
5597.	231516	5644.	234138	5691.	235593	5738.	236662	5785.	237786
5598.	231518	5645.	234303	5692.	235598	5739.	236664	5786.	237790
5599.	231528	5646.	234345	5693.	235618	5740.	236684	5787.	237829
5600.	231535	5647.	234364	5694.	235629	5741.	236694	5788.	237906
5601.	231558	5648.	234366	5695.	235650	5742.	236709	5789.	237924
5602.	231587	5649.	234375	5696.	235665	5743.	236719	5790.	237939
5603.	231625	5650.	234422	5697.	235688	5744.	236722	5791.	237951
5604.	231646	5651.	234431	5698.	235712	5745.	236737	5792.	237959
5605.	231732	5652.	234457	5699.	235730	5746.	236767	5793.	237967
5606.	231742	5653.	234505	5700.	235733	5747.	236783	5794.	238022
5607.	231809	5654.	234506	5701.	235749	5748.	236817	5795.	238130
5608.	231843	5655.	234537	5702.	235808	5749.	236891	5796.	238149
5609.	231862	5656.	234580	5703.	235829	5750.	236916	5797.	238156
5610.	231937	5657.	234614	5704.	235838	5751.	236936	5798.	238168
5611.	232212	5658.	234695	5705.	235839	5752.	236939	5799.	238203
5612.	232219	5659.	234697	5706.	235927	5753.	236948	5800.	238206
5613.	232245	5660.	234728	5707.	235936	5754.	236961	5801.	238277

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
5802.	238313	5849.	239456	5896.	240664	5943.	241938	5990.	243415
5803.	238327	5850.	239470	5897.	240675	5944.	241941	5991.	243443
5804.	238335	5851.	239513	5898.	240705	5945.	241957	5992.	243463
5805.	238353	5852.	239530	5899.	240716	5946.	241974	5993.	243489
5806.	238407	5853.	239544	5900.	240727	5947.	241993	5994.	243534
5807.	238469	5854.	239547	5901.	240735	5948.	242043	5995.	243554
5808.	238513	5855.	239570	5902.	240737	5949.	242114	5996.	243598
5809.	238522	5856.	239605	5903.	240743	5950.	242140	5997.	243629
5810.	238543	5857.	239632	5904.	240785	5951.	242242	5998.	243634
5811.	238604	5858.	239646	5905.	240969	5952.	242254	5999.	243643
5812.	238608	5859.	239668	5906.	240984	5953.	242262	6000.	243749
5813.	238670	5860.	239669	5907.	241021	5954.	242280	6001.	243771
5814.	238681	5861.	239684	5908.	241055	5955.	242293	6002.	243778
5815.	238696	5862.	239700	5909.	241065	5956.	242312	6003.	243791
5816.	238704	5863.	239746	5910.	241067	5957.	242362	6004.	243839
5817.	238720	5864.	239872	5911.	241122	5958.	242364	6005.	243878
5818.	238764	5865.	239873	5912.	241152	5959.	242374	6006.	243887
5819.	238788	5866.	239906	5913.	241163	5960.	242445	6007.	243891
5820.	238801	5867.	239907	5914.	241166	5961.	242453	6008.	243920
5821.	238869	5868.	239978	5915.	241193	5962.	242468	6009.	244019
5822.	238883	5869.	239990	5916.	241203	5963.	242512	6010.	244119
5823.	238889	5870.	239995	5917.	241319	5964.	242536	6011.	244183
5824.	238890	5871.	240002	5918.	241333	5965.	242565	6012.	244196
5825.	238920	5872.	240034	5919.	241369	5966.	242594	6013.	244255
5826.	238946	5873.	240053	5920.	241418	5967.	242607	6014.	244296
5827.	238950	5874.	240072	5921.	241428	5968.	242623	6015.	244333
5828.	238951	5875.	240109	5922.	241450	5969.	242629	6016.	244334
5829.	238953	5876.	240131	5923.	241459	5970.	242705	6017.	244347
5830.	238980	5877.	240149	5924.	241463	5971.	242792	6018.	244389
5831.	239012	5878.	240150	5925.	241477	5972.	242805	6019.	244393
5832.	239043	5879.	240153	5926.	241485	5973.	242821	6020.	244415
5833.	239105	5880.	240158	5927.	241504	5974.	242869	6021.	244427
5834.	239108	5881.	240214	5928.	241608	5975.	242932	6022.	244436
5835.	239118	5882.	240236	5929.	241618	5976.	242949	6023.	244500
5836.	239132	5883.	240296	5930.	241630	5977.	242959	6024.	244576
5837.	239154	5884.	240312	5931.	241653	5978.	242989	6025.	244580
5838.	239155	5885.	240350	5932.	241657	5979.	243021	6026.	244587
5839.	239162	5886.	240367	5933.	241669	5980.	243035	6027.	244690
5840.	239182	5887.	240430	5934.	241672	5981.	243036	6028.	244707
5841.	239183	5888.	240459	5935.	241712	5982.	243087	6029.	244797
5842.	239225	5889.	240543	5936.	241737	5983.	243122	6030.	244844
5843.	239248	5890.	240545	5937.	241744	5984.	243194	6031.	244958
5844.	239251	5891.	240552	5938.	241802	5985.	243253	6032.	245067
5845.	239281	5892.	240574	5939.	241808	5986.	243316	6033.	245090
5846.	239285	5893.	240595	5940.	241821	5987.	243337	6034.	245152
5847.	239385	5894.	240612	5941.	241824	5988.	243363	6035.	245194
5848.	239390	5895.	240634	5942.	241863	5989.	243389	6036.	245223

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
6037.	245228	6084.	246907	6131.	248441	6178.	249605	6225.	250646
6038.	245270	6085.	246961	6132.	248482	6179.	249708	6226.	250743
6039.	245278	6086.	247012	6133.	248500	6180.	249755	6227.	250762
6040.	245327	6087.	247036	6134.	248572	6181.	249796	6228.	250770
6041.	245328	6088.	247048	6135.	248674	6182.	249830	6229.	250776
6042.	245469	6089.	247103	6136.	248682	6183.	249856	6230.	250795
6043.	245492	6090.	247135	6137.	248689	6184.	249878	6231.	250807
6044.	245495	6091.	247155	6138.	248713	6185.	249889	6232.	250814
6045.	245500	6092.	247208	6139.	248720	6186.	249931	6233.	250817
6046.	245605	6093.	247226	6140.	248728	6187.	249942	6234.	250820
6047.	245692	6094.	247305	6141.	248759	6188.	249960	6235.	250838
6048.	245717	6095.	247306	6142.	248768	6189.	249966	6236.	250873
6049.	245772	6096.	247358	6143.	248777	6190.	249973	6237.	250874
6050.	245821	6097.	247430	6144.	248778	6191.	249999	6238.	250910
6051.	245836	6098.	247441	6145.	248787	6192.	250012	6239.	250927
6052.	245863	6099.	247443	6146.	248812	6193.	250019	6240.	250950
6053.	245981	6100.	247744	6147.	248819	6194.	250031	6241.	250997
6054.	246056	6101.	247761	6148.	248824	6195.	250034	6242.	251022
6055.	246091	6102.	247769	6149.	248835	6196.	250044	6243.	251025
6056.	246230	6103.	247795	6150.	248877	6197.	250047	6244.	251040
6057.	246258	6104.	247812	6151.	248923	6198.	250062	6245.	251103
6058.	246275	6105.	247828	6152.	248930	6199.	250075	6246.	251105
6059.	246351	6106.	247851	6153.	248982	6200.	250078	6247.	251121
6060.	246361	6107.	247858	6154.	248990	6201.	250080	6248.	251127
6061.	246388	6108.	247865	6155.	248995	6202.	250086	6249.	251150
6062.	246459	6109.	247870	6156.	249007	6203.	250089	6250.	251153
6063.	246465	6110.	247879	6157.	249075	6204.	250093	6251.	251159
6064.	246498	6111.	247900	6158.	249090	6205.	250181	6252.	251167
6065.	246499	6112.	247916	6159.	249103	6206.	250213	6253.	251183
6066.	246513	6113.	247953	6160.	249140	6207.	250228	6254.	251187
6067.	246528	6114.	247961	6161.	249147	6208.	250234	6255.	251289
6068.	246538	6115.	247987	6162.	249195	6209.	250239	6256.	251308
6069.	246541	6116.	248015	6163.	249207	6210.	250287	6257.	251323
6070.	246551	6117.	248023	6164.	249251	6211.	250298	6258.	251371
6071.	246581	6118.	248068	6165.	249317	6212.	250320	6259.	251393
6072.	246602	6119.	248093	6166.	249335	6213.	250373	6260.	251413
6073.	246619	6120.	248094	6167.	249373	6214.	250418	6261.	251436
6074.	246629	6121.	248101	6168.	249413	6215.	250421	6262.	251467
6075.	246646	6122.	248182	6169.	249420	6216.	250507	6263.	251478
6076.	246668	6123.	248244	6170.	249421	6217.	250512	6264.	251493
6077.	246683	6124.	248256	6171.	249439	6218.	250518	6265.	251528
6078.	246745	6125.	248302	6172.	249488	6219.	250529	6266.	251555
6079.	246755	6126.	248329	6173.	249495	6220.	250542	6267.	251596
6080.	246792	6127.	248365	6174.	249499	6221.	250565	6268.	251702
6081.	246814	6128.	248432	6175.	249531	6222.	250572	6269.	251704
6082.	246817	6129.	248438	6176.	249537	6223.	250586	6270.	251714
6083.	246877	6130.	248440	6177.	249601	6224.	250589	6271.	251739

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
6272.	251748	6319.	252554	6366.	253948	6413.	255233	6460.	256674
6273.	251751	6320.	252610	6367.	253957	6414.	255238	6461.	256710
6274.	251753	6321.	252618	6368.	253967	6415.	255305	6462.	256745
6275.	251771	6322.	252637	6369.	254007	6416.	255321	6463.	256750
6276.	251822	6323.	252679	6370.	254019	6417.	255411	6464.	256755
6277.	251824	6324.	252685	6371.	254020	6418.	255432	6465.	256761
6278.	251844	6325.	252698	6372.	254051	6419.	255444	6466.	256803
6279.	251878	6326.	252763	6373.	254102	6420.	255476	6467.	256933
6280.	251879	6327.	252934	6374.	254114	6421.	255499	6468.	256946
6281.	251887	6328.	252963	6375.	254127	6422.	255513	6469.	256953
6282.	251914	6329.	252969	6376.	254140	6423.	255546	6470.	256960
6283.	251932	6330.	252976	6377.	254161	6424.	255557	6471.	256985
6284.	251940	6331.	253068	6378.	254211	6425.	255561	6472.	257008
6285.	251959	6332.	253102	6379.	254231	6426.	255586	6473.	257019
6286.	251966	6333.	253183	6380.	254276	6427.	255609	6474.	257037
6287.	251988	6334.	253261	6381.	254278	6428.	255636	6475.	257051
6288.	252016	6335.	253276	6382.	254302	6429.	255673	6476.	257055
6289.	252018	6336.	253310	6383.	254312	6430.	255742	6477.	257063
6290.	252027	6337.	253327	6384.	254402	6431.	255761	6478.	257076
6291.	252050	6338.	253333	6385.	254407	6432.	255824	6479.	257096
6292.	252071	6339.	253346	6386.	254408	6433.	255825	6480.	257109
6293.	252086	6340.	253354	6387.	254436	6434.	255841	6481.	257161
6294.	252089	6341.	253385	6388.	254464	6435.	255853	6482.	257181
6295.	252102	6342.	253394	6389.	254482	6436.	255868	6483.	257224
6296.	252104	6343.	253398	6390.	254526	6437.	255892	6484.	257246
6297.	252132	6344.	253401	6391.	254529	6438.	255905	6485.	257255
6298.	252168	6345.	253416	6392.	254590	6439.	255908	6486.	257324
6299.	252169	6346.	253494	6393.	254628	6440.	255965	6487.	257342
6300.	252170	6347.	253496	6394.	254639	6441.	255982	6488.	257369
6301.	252177	6348.	253523	6395.	254691	6442.	256041	6489.	257457
6302.	252188	6349.	253534	6396.	254694	6443.	256050	6490.	257458
6303.	252233	6350.	253536	6397.	254726	6444.	256068	6491.	257463
6304.	252235	6351.	253568	6398.	254743	6445.	256146	6492.	257482
6305.	252241	6352.	253576	6399.	254746	6446.	256188	6493.	257518
6306.	252255	6353.	253595	6400.	254820	6447.	256262	6494.	257540
6307.	252264	6354.	253618	6401.	254845	6448.	256319	6495.	257555
6308.	252266	6355.	253669	6402.	254875	6449.	256324	6496.	257623
6309.	252293	6356.	253719	6403.	254892	6450.	256346	6497.	257630
6310.	252302	6357.	253723	6404.	254906	6451.	256401	6498.	257699
6311.	252332	6358.	253779	6405.	254976	6452.	256443	6499.	257730
6312.	252355	6359.	253795	6406.	255007	6453.	256480	6500.	257827
6313.	252394	6360.	253836	6407.	255016	6454.	256563	6501.	257832
6314.	252426	6361.	253861	6408.	255116	6455.	256579	6502.	257929
6315.	252446	6362.	253894	6409.	255138	6456.	256591	6503.	257982
6316.	252506	6363.	253906	6410.	255184	6457.	256628	6504.	257983
6317.	252507	6364.	253930	6411.	255218	6458.	256652	6505.	258054
6318.	252540	6365.	253945	6412.	255231	6459.	256661	6506.	258088

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
6507.	258138	6554.	259102	6601.	260677	6648.	262321	6695.	263586
6508.	258150	6555.	259146	6602.	260679	6649.	262336	6696.	263633
6509.	258161	6556.	259165	6603.	260792	6650.	262351	6697.	263635
6510.	258176	6557.	259204	6604.	260795	6651.	262352	6698.	263637
6511.	258192	6558.	259209	6605.	260800	6652.	262363	6699.	263654
6512.	258195	6559.	259211	6606.	260801	6653.	262368	6700.	263679
6513.	258216	6560.	259219	6607.	260802	6654.	262389	6701.	263695
6514.	258250	6561.	259220	6608.	260829	6655.	262460	6702.	263706
6515.	258290	6562.	259249	6609.	260912	6656.	262515	6703.	263718
6516.	258301	6563.	259281	6610.	260923	6657.	262542	6704.	263731
6517.	258302	6564.	259310	6611.	260984	6658.	262647	6705.	263849
6518.	258307	6565.	259437	6612.	261041	6659.	262658	6706.	263886
6519.	258353	6566.	259558	6613.	261066	6660.	262659	6707.	263909
6520.	258405	6567.	259567	6614.	261108	6661.	262704	6708.	263982
6521.	258408	6568.	259587	6615.	261171	6662.	262738	6709.	263994
6522.	258413	6569.	259628	6616.	261206	6663.	262780	6710.	264021
6523.	258444	6570.	259718	6617.	261208	6664.	262846	6711.	264053
6524.	258452	6571.	259752	6618.	261216	6665.	262847	6712.	264137
6525.	258477	6572.	259785	6619.	261220	6666.	262851	6713.	264143
6526.	258482	6573.	259823	6620.	261254	6667.	262877	6714.	264196
6527.	258494	6574.	259857	6621.	261280	6668.	262910	6715.	264221
6528.	258521	6575.	259897	6622.	261354	6669.	262916	6716.	264256
6529.	258575	6576.	259924	6623.	261374	6670.	262919	6717.	264273
6530.	258577	6577.	259934	6624.	261432	6671.	262923	6718.	264323
6531.	258599	6578.	260003	6625.	261469	6672.	262924	6719.	264329
6532.	258604	6579.	260007	6626.	261473	6673.	262960	6720.	264346
6533.	258662	6580.	260010	6627.	261492	6674.	262961	6721.	264383
6534.	258709	6581.	260050	6628.	261502	6675.	263058	6722.	264403
6535.	258742	6582.	260102	6629.	261529	6676.	263086	6723.	264415
6536.	258782	6583.	260103	6630.	261569	6677.	263100	6724.	264418
6537.	258790	6584.	260113	6631.	261775	6678.	263112	6725.	264438
6538.	258792	6585.	260127	6632.	261785	6679.	263136	6726.	264477
6539.	258832	6586.	260166	6633.	261810	6680.	263206	6727.	264480
6540.	258851	6587.	260242	6634.	261818	6681.	263234	6728.	264517
6541.	258885	6588.	260262	6635.	261820	6682.	263294	6729.	264577
6542.	258898	6589.	260316	6636.	261868	6683.	263344	6730.	264591
6543.	258905	6590.	260334	6637.	261920	6684.	263367	6731.	264661
6544.	258929	6591.	260338	6638.	261928	6685.	263401	6732.	264664
6545.	258931	6592.	260342	6639.	261965	6686.	263408	6733.	264678
6546.	258939	6593.	260453	6640.	262091	6687.	263424	6734.	264680
6547.	258953	6594.	260465	6641.	262128	6688.	263466	6735.	264739
6548.	258954	6595.	260502	6642.	262189	6689.	263488	6736.	264777
6549.	259031	6596.	260509	6643.	262220	6690.	263502	6737.	264799
6550.	259063	6597.	260547	6644.	262231	6691.	263504	6738.	264846
6551.	259072	6598.	260551	6645.	262246	6692.	263507	6739.	264879
6552.	259083	6599.	260557	6646.	262295	6693.	263527	6740.	264882
6553.	259101	6600.	260671	6647.	262299	6694.	263533	6741.	264902

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
6742.	264918	6789.	266174	6836.	267556	6883.	269132	6930.	270209
6743.	264948	6790.	266179	6837.	267575	6884.	269133	6931.	270271
6744.	265002	6791.	266224	6838.	267624	6885.	269156	6932.	270279
6745.	265061	6792.	266272	6839.	267651	6886.	269235	6933.	270300
6746.	265148	6793.	266284	6840.	267749	6887.	269251	6934.	270325
6747.	265153	6794.	266356	6841.	267751	6888.	269313	6935.	270376
6748.	265154	6795.	266418	6842.	267754	6889.	269315	6936.	270404
6749.	265163	6796.	266518	6843.	267770	6890.	269341	6937.	270412
6750.	265167	6797.	266526	6844.	267771	6891.	269343	6938.	270465
6751.	265171	6798.	266554	6845.	267845	6892.	269399	6939.	270505
6752.	265205	6799.	266610	6846.	267865	6893.	269486	6940.	270513
6753.	265206	6800.	266622	6847.	267921	6894.	269540	6941.	270517
6754.	265264	6801.	266632	6848.	267935	6895.	269591	6942.	270527
6755.	265278	6802.	266634	6849.	267986	6896.	269605	6943.	270540
6756.	265284	6803.	266653	6850.	268013	6897.	269610	6944.	270542
6757.	265295	6804.	266685	6851.	268065	6898.	269621	6945.	270552
6758.	265403	6805.	266700	6852.	268078	6899.	269640	6946.	270585
6759.	265411	6806.	266702	6853.	268159	6900.	269673	6947.	270600
6760.	265457	6807.	266755	6854.	268168	6901.	269680	6948.	270625
6761.	265530	6808.	266759	6855.	268189	6902.	269704	6949.	270688
6762.	265560	6809.	266760	6856.	268248	6903.	269720	6950.	270713
6763.	265602	6810.	266808	6857.	268266	6904.	269727	6951.	270744
6764.	265603	6811.	266818	6858.	268300	6905.	269728	6952.	270748
6765.	265609	6812.	266846	6859.	268338	6906.	269745	6953.	270834
6766.	265633	6813.	266885	6860.	268352	6907.	269772	6954.	270851
6767.	265649	6814.	266912	6861.	268370	6908.	269777	6955.	270852
6768.	265683	6815.	266919	6862.	268383	6909.	269803	6956.	270859
6769.	265690	6816.	266982	6863.	268445	6910.	269809	6957.	270887
6770.	265708	6817.	266990	6864.	268484	6911.	269815	6958.	270959
6771.	265737	6818.	267013	6865.	268486	6912.	269825	6959.	270968
6772.	265769	6819.	267014	6866.	268522	6913.	269844	6960.	270984
6773.	265774	6820.	267072	6867.	268545	6914.	269885	6961.	271040
6774.	265796	6821.	267087	6868.	268560	6915.	269904	6962.	271066
6775.	265815	6822.	267168	6869.	268713	6916.	269923	6963.	271131
6776.	265839	6823.	267174	6870.	268734	6917.	269941	6964.	271137
6777.	265878	6824.	267180	6871.	268762	6918.	269944	6965.	271138
6778.	265901	6825.	267185	6872.	268781	6919.	269945	6966.	271170
6779.	265903	6826.	267231	6873.	268802	6920.	269955	6967.	271183
6780.	265927	6827.	267274	6874.	268833	6921.	269966	6968.	271189
6781.	265943	6828.	267298	6875.	268849	6922.	269971	6969.	271205
6782.	265978	6829.	267356	6876.	268869	6923.	270024	6970.	271217
6783.	265997	6830.	267377	6877.	268890	6924.	270068	6971.	271347
6784.	266022	6831.	267396	6878.	268942	6925.	270076	6972.	271366
6785.	266072	6832.	267463	6879.	268994	6926.	270085	6973.	271393
6786.	266114	6833.	267467	6880.	269064	6927.	270098	6974.	271446
6787.	266127	6834.	267475	6881.	269080	6928.	270130	6975.	271460
6788.	266157	6835.	267489	6882.	269125	6929.	270183	6976.	271476

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
6977.	271488	7024.	272682	7071.	274049	7118.	275552	7165.	276956
6978.	271517	7025.	272694	7072.	274059	7119.	275661	7166.	277025
6979.	271581	7026.	272724	7073.	274063	7120.	275700	7167.	277093
6980.	271584	7027.	272733	7074.	274067	7121.	275754	7168.	277212
6981.	271629	7028.	272756	7075.	274109	7122.	275768	7169.	277235
6982.	271652	7029.	272763	7076.	274146	7123.	275796	7170.	277243
6983.	271668	7030.	272778	7077.	274162	7124.	275831	7171.	277295
6984.	271679	7031.	272794	7078.	274220	7125.	275842	7172.	277298
6985.	271683	7032.	272805	7079.	274284	7126.	275858	7173.	277314
6986.	271739	7033.	272839	7080.	274308	7127.	275902	7174.	277320
6987.	271751	7034.	272925	7081.	274334	7128.	275914	7175.	277401
6988.	271781	7035.	272967	7082.	274392	7129.	275921	7176.	277407
6989.	271796	7036.	272968	7083.	274463	7130.	275925	7177.	277408
6990.	271801	7037.	272973	7084.	274473	7131.	275983	7178.	277415
6991.	271803	7038.	273003	7085.	274484	7132.	276020	7179.	277420
6992.	271811	7039.	273030	7086.	274486	7133.	276026	7180.	277421
6993.	271881	7040.	273051	7087.	274551	7134.	276039	7181.	277454
6994.	271890	7041.	273055	7088.	274561	7135.	276040	7182.	277471
6995.	271901	7042.	273078	7089.	274593	7136.	276118	7183.	277492
6996.	271988	7043.	273113	7090.	274611	7137.	276123	7184.	277522
6997.	271993	7044.	273115	7091.	274612	7138.	276146	7185.	277534
6998.	272054	7045.	273127	7092.	274632	7139.	276232	7186.	277544
6999.	272119	7046.	273129	7093.	274635	7140.	276247	7187.	277550
7000.	272134	7047.	273136	7094.	274652	7141.	276349	7188.	277576
7001.	272145	7048.	273171	7095.	274693	7142.	276379	7189.	277586
7002.	272186	7049.	273177	7096.	274717	7143.	276411	7190.	277611
7003.	272189	7050.	273188	7097.	274782	7144.	276424	7191.	277639
7004.	272214	7051.	273227	7098.	274820	7145.	276433	7192.	277655
7005.	272264	7052.	273243	7099.	274874	7146.	276506	7193.	277659
7006.	272266	7053.	273368	7100.	274893	7147.	276510	7194.	277743
7007.	272301	7054.	273390	7101.	274936	7148.	276529	7195.	277863
7008.	272317	7055.	273391	7102.	274982	7149.	276545	7196.	277875
7009.	272401	7056.	273450	7103.	275059	7150.	276565	7197.	277889
7010.	272410	7057.	273452	7104.	275125	7151.	276605	7198.	277903
7011.	272450	7058.	273490	7105.	275145	7152.	276659	7199.	277940
7012.	272457	7059.	273496	7106.	275169	7153.	276728	7200.	277959
7013.	272481	7060.	273613	7107.	275237	7154.	276744	7201.	277994
7014.	272498	7061.	273669	7108.	275296	7155.	276757	7202.	278012
7015.	272512	7062.	273765	7109.	275346	7156.	276764	7203.	278016
7016.	272534	7063.	273798	7110.	275353	7157.	276780	7204.	278050
7017.	272539	7064.	273819	7111.	275371	7158.	276814	7205.	278079
7018.	272547	7065.	273838	7112.	275412	7159.	276846	7206.	278131
7019.	272559	7066.	273866	7113.	275468	7160.	276850	7207.	278141
7020.	272570	7067.	273973	7114.	275503	7161.	276889	7208.	278148
7021.	272626	7068.	273977	7115.	275504	7162.	276914	7209.	278167
7022.	272639	7069.	273979	7116.	275511	7163.	276915	7210.	278233
7023.	272672	7070.	273987	7117.	275528	7164.	276918	7211.	278234

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
7212.	278271	7259.	280017	7306.	281423	7353.	282981	7400.	284336
7213.	278288	7260.	280024	7307.	281455	7354.	283009	7401.	284353
7214.	278300	7261.	280083	7308.	281464	7355.	283052	7402.	284383
7215.	278337	7262.	280088	7309.	281492	7356.	283063	7403.	284408
7216.	278371	7263.	280092	7310.	281497	7357.	283099	7404.	284410
7217.	278407	7264.	280146	7311.	281526	7358.	283125	7405.	284420
7218.	278419	7265.	280187	7312.	281553	7359.	283155	7406.	284435
7219.	278449	7266.	280197	7313.	281600	7360.	283296	7407.	284445
7220.	278450	7267.	280277	7314.	281605	7361.	283310	7408.	284452
7221.	278696	7268.	280315	7315.	281611	7362.	283319	7409.	284541
7222.	278716	7269.	280347	7316.	281674	7363.	283378	7410.	284556
7223.	278756	7270.	280447	7317.	281684	7364.	283379	7411.	284622
7224.	278786	7271.	280456	7318.	281715	7365.	283398	7412.	284647
7225.	278823	7272.	280485	7319.	281729	7366.	283426	7413.	284685
7226.	278833	7273.	280510	7320.	281800	7367.	283441	7414.	284861
7227.	278992	7274.	280558	7321.	281807	7368.	283454	7415.	284888
7228.	279042	7275.	280591	7322.	281842	7369.	283538	7416.	284898
7229.	279076	7276.	280612	7323.	281848	7370.	283574	7417.	284945
7230.	279108	7277.	280760	7324.	281853	7371.	283593	7418.	285024
7231.	279126	7278.	280778	7325.	281914	7372.	283619	7419.	285063
7232.	279131	7279.	280780	7326.	281925	7373.	283622	7420.	285073
7233.	279132	7280.	280851	7327.	281927	7374.	283639	7421.	285078
7234.	279151	7281.	280886	7328.	281966	7375.	283652	7422.	285081
7235.	279158	7282.	280896	7329.	281997	7376.	283682	7423.	285084
7236.	279189	7283.	280898	7330.	282068	7377.	283724	7424.	285097
7237.	279267	7284.	280902	7331.	282132	7378.	283730	7425.	285143
7238.	279305	7285.	280924	7332.	282256	7379.	283734	7426.	285150
7239.	279370	7286.	280946	7333.	282269	7380.	283754	7427.	285151
7240.	279447	7287.	280984	7334.	282277	7381.	283760	7428.	285154
7241.	279490	7288.	280987	7335.	282316	7382.	283772	7429.	285176
7242.	279493	7289.	281024	7336.	282352	7383.	283828	7430.	285251
7243.	279552	7290.	281026	7337.	282394	7384.	283883	7431.	285277
7244.	279577	7291.	281042	7338.	282412	7385.	283893	7432.	285336
7245.	279671	7292.	281075	7339.	282427	7386.	284000	7433.	285345
7246.	279691	7293.	281111	7340.	282521	7387.	284022	7434.	285350
7247.	279757	7294.	281133	7341.	282566	7388.	284048	7435.	285382
7248.	279768	7295.	281143	7342.	282675	7389.	284061	7436.	285411
7249.	279774	7296.	281149	7343.	282737	7390.	284062	7437.	285469
7250.	279790	7297.	281244	7344.	282778	7391.	284080	7438.	285482
7251.	279814	7298.	281292	7345.	282804	7392.	284099	7439.	285525
7252.	279877	7299.	281305	7346.	282808	7393.	284105	7440.	285536
7253.	279896	7300.	281326	7347.	282812	7394.	284141	7441.	285578
7254.	279906	7301.	281353	7348.	282842	7395.	284197	7442.	285585
7255.	279915	7302.	281356	7349.	282846	7396.	284221	7443.	285589
7256.	279953	7303.	281362	7350.	282876	7397.	284232	7444.	285647
7257.	279967	7304.	281366	7351.	282888	7398.	284251	7445.	285678
7258.	280000	7305.	281417	7352.	282941	7399.	284267	7446.	285727

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
7447.	285775	7494.	286996	7534.	288469	7574.	289394	7614.	290195
7448.	285784	7495.	287026	7535.	288532	7575.	289399	7615.	290219
7449.	285806	7496.	287044	7536.	288534	7576.	289425	7616.	290228
7450.	285808	7497.	287077	7537.	288560	7577.	289452	7617.	290258
7451.	285856	7498.	287131	7538.	288566	7578.	289543	7618.	290279
7452.	285871	7499.	287146	7539.	288587	7579.	289569	7619.	290303
7453.	285879	7500.	287167	7540.	288609	7580.	289571	7620.	290319
7454.	285886	7501.	287225	7541.	288618	7581.	289593	7621.	290345
7455.	285890	7502.	287240	7542.	288624	7582.	289596	7622.	290380
7456.	285919	7503.	287241	7543.	288627	7583.	289619	7623.	290401
7457.	285920	7504.	287273	7544.	288684	7584.	289620	7624.	290417
7458.	285931	7505.	287332	7545.	288690	7585.	289626	7625.	290419
7459.	285994	7506.	287514	7546.	288705	7586.	289627	7626.	290433
7460.	286034	7507.	287574	7547.	288707	7587.	289657	7627.	290452
7461.	286057	7508.	287590	7548.	288719	7588.	289666	7628.	290457
7462.	286082	7509.	287653	7549.	288731	7589.	289676	7629.	290497
7463.	286084	7510.	287675	7550.	288761	7590.	289689	7630.	290498
7464.	286093	7511.	287677	7551.	288795	7591.	289750	7631.	290501
7465.	286100	7512.	287682	7552.	288860	7592.	289759	7632.	290544
7466.	286126	7513.	287714	7553.	288880	7593.	289788	7633.	290703
7467.	286128	7514.	287771	7554.	288894	7594.	289794	7634.	290723
7468.	286147	7515.	287802	7555.	288909	7595.	289796	7635.	290739
7469.	286171	7516.	287834	7556.	288914	7596.	289801	7636.	290776
7470.	286223	7517.	287891	7557.	288925	7597.	289803	7637.	290795
7471.	286236	7518.	287896	7558.	288967	7598.	289807	7638.	290818
7472.	286276	7519.	287912	7559.	288980	7599.	289857	7639.	290854
7473.	286291	7520.	287971	7560.	288989	7600.	289886	7640.	290874
7474.	286297	7521.	288009	7561.	289010	7601.	289892	7641.	290929
7475.	286301	7522.	288040	7562.	289092	7602.	289898	7642.	290946
7476.	286355	7523.	288046	7563.	289111	7603.	289929	7643.	290958
7477.	286410	7524.	288057	7564.	289126	7604.	289931	7644.	290980
7478.	286413	7525.	288129	7565.	289134	7605.	289941	7645.	290985
7479.	286433	7526.	288151	7566.	289147	7606.	289943	7646.	290996
7480.	286485	7527.	288228	7567.	289157	7607.	289996	7647.	291029
7481.	286531	7528.	288234	7568.	289184	7608.	290100	7648.	291058
7482.	286584	7529.	288290	7569.	289277	7609.	290119	7649.	291082
7483.	286601	7530.	288294	7570.	289320	7610.	290125	7650.	291149
7484.	286682	7531.	288326	7571.	289334	7611.	290129	7651.	291185
7485.	286702	7532.	288428	7572.	289338	7612.	290138	7652.	291196
7486.	286715	7533.	288434	7573.	289340	7613.	290159	7653.	291214

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
7654.	291254	7698.	292408	7745.	293512	7792.	295475	7839.	296978
7655.	291259	7699.	292411	7746.	293621	7793.	295490	7840.	296994
7656.	291281	7700.	292429	7747.	293645	7794.	295521	7841.	297066
7657.	291284	7701.	292435	7748.	293648	7795.	295522	7842.	297123
7658.	291319	7702.	292440	7749.	293660	7796.	295537	7843.	297142
7659.	291351	7703.	292453	7750.	293684	7797.	295540	7844.	297162
7660.	291357	7704.	292454	7751.	293788	7798.	295548	7845.	297182
7661.	291363	7705.	292483	7752.	293821	7799.	295577	7846.	297228
7662.	291400	7706.	292484	7753.	293858	7800.	295632	7847.	297278
7663.	291416	7707.	292644	7754.	294038	7801.	295649	7848.	297331
7664.	291439	7708.	292716	7755.	294045	7802.	295653	7849.	297356
7665.	291589	7709.	292723	7756.	294053	7803.	295665	7850.	297440
7666.	291614	7710.	292740	7757.	294119	7804.	295669	7851.	297452
7667.	291620	7711.	292743	7758.	294184	7805.	295691	7852.	297498
7668.	291621	7712.	292750	7759.	294291	7806.	295728	7853.	297529
7669.	291622	7713.	292759	7760.	294349	7807.	295739	7854.	297561
7670.	291666	7714.	292768	7761.	294367	7808.	295841	7855.	297605
7671.	291684	7715.	292783	7762.	294437	7809.	295870	7856.	297617
7672.	291691	7716.	292805	7763.	294452	7810.	295912	7857.	297659
7673.	291693	7717.	292827	7764.	294464	7811.	295933	7858.	297706
7674.	291725	7718.	292829	7765.	294466	7812.	296017	7859.	297748
7675.	291733	7719.	292830	7766.	294484	7813.	296049	7860.	297779
7676.	291741	7720.	292843	7767.	294636	7814.	296062	7861.	297812
7677.	291742	7721.	292874	7768.	294648	7815.	296094	7862.	297833
7678.	291811	7722.	292904	7769.	294709	7816.	296118	7863.	297884
7679.	291835	7723.	292917	7770.	294729	7817.	296123	7864.	297928
7680.	291860	7724.	292950	7771.	294751	7818.	296176	7865.	297950
7681.	291869	7725.	292958	7772.	294815	7819.	296179	7866.	297994
7682.	291911	7726.	292964	7773.	294827	7820.	296223	7867.	298009
7683.	291923	7727.	292978	7774.	294868	7821.	296235	7868.	298062
7684.	291936	7728.	293039	7775.	294873	7822.	296243	7869.	298128
7685.	291937	7729.	293095	7776.	294879	7823.	296261	7870.	298149
7686.	291955	7730.	293159	7777.	294924	7824.	296280	7871.	298153
7687.	291959	7731.	293188	7778.	294994	7825.	296381	7872.	298157
7688.	291980	7732.	293208	7779.	295013	7826.	296430	7873.	298166
7689.	292042	7733.	293214	7780.	295071	7827.	296614	7874.	298174
7690.	292059	7734.	293263	7781.	295138	7828.	296663	7875.	298182
7691.	292077	7735.	293305	7782.	295168	7829.	296674	7876.	298253
7692.	292092	7736.	293308	7783.	295172	7830.	296697	7877.	298287
7693.	292112	7737.	293335	7784.	295191	7831.	296745	7878.	298288
7694.	292139	7738.	293353	7785.	295237	7832.	296801	7879.	298335
7695.	292220	7739.	293378	7786.	295252	7833.	296823	7880.	298354
7696.	292248	7740.	293386	7787.	295289	7834.	296876	7881.	298440
7697.	292336	7741.	293443	7788.	295291	7835.	296905	7882.	298560
		7742.	293446	7789.	295310	7836.	296922	7883.	298576
		7743.	293475	7790.	295381	7837.	296962	7884.	298756
		7744.	293487	7791.	295408	7838.	296965	7885.	298765

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
7886.	298784	7933.	300169	7980.	301921	8027.	303635	8074.	305250
7887.	298785	7934.	300170	7981.	301942	8028.	303697	8075.	305252
7888.	298833	7935.	300190	7982.	301957	8029.	303790	8076.	305322
7889.	298915	7936.	300250	7983.	302003	8030.	303799	8077.	305349
7890.	298947	7937.	300308	7984.	302015	8031.	303802	8078.	305430
7891.	299113	7938.	300332	7985.	302042	8032.	303823	8079.	305443
7892.	299144	7939.	300346	7986.	302049	8033.	303858	8080.	305452
7893.	299152	7940.	300350	7987.	302065	8034.	303914	8081.	305462
7894.	299158	7941.	300367	7988.	302068	8035.	303920	8082.	305468
7895.	299166	7942.	300388	7989.	302411	8036.	303965	8083.	305482
7896.	299167	7943.	300396	7990.	302419	8037.	303980	8084.	305485
7897.	299170	7944.	300454	7991.	302462	8038.	304007	8085.	305486
7898.	299173	7945.	300605	7992.	302510	8039.	304037	8086.	305552
7899.	299174	7946.	300687	7993.	302511	8040.	304041	8087.	305565
7900.	299193	7947.	300722	7994.	302518	8041.	304100	8088.	305648
7901.	299234	7948.	300732	7995.	302553	8042.	304102	8089.	305681
7902.	299283	7949.	300782	7996.	302567	8043.	304124	8090.	305727
7903.	299287	7950.	300855	7997.	302575	8044.	304143	8091.	305751
7904.	299343	7951.	300889	7998.	302627	8045.	304145	8092.	305756
7905.	299345	7952.	300977	7999.	302634	8046.	304182	8093.	305787
7906.	299391	7953.	301024	8000.	302640	8047.	304201	8094.	305802
7907.	299418	7954.	301115	8001.	302648	8048.	304289	8095.	305916
7908.	299425	7955.	301191	8002.	302703	8049.	304351	8096.	305917
7909.	299473	7956.	301225	8003.	302741	8050.	304370	8097.	305993
7910.	299486	7957.	301230	8004.	302841	8051.	304389	8098.	305995
7911.	299516	7958.	301251	8005.	302924	8052.	304422	8099.	305999
7912.	299559	7959.	301315	8006.	302928	8053.	304563	8100.	306052
7913.	299617	7960.	301340	8007.	302952	8054.	304586	8101.	306120
7914.	299658	7961.	301354	8008.	302988	8055.	304612	8102.	306168
7915.	299663	7962.	301444	8009.	302990	8056.	304649	8103.	306185
7916.	299669	7963.	301466	8010.	303019	8057.	304658	8104.	306197
7917.	299718	7964.	301472	8011.	303033	8058.	304698	8105.	306220
7918.	299812	7965.	301555	8012.	303063	8059.	304757	8106.	306317
7919.	299814	7966.	301590	8013.	303077	8060.	304767	8107.	306322
7920.	299840	7967.	301597	8014.	303097	8061.	304829	8108.	306336
7921.	299844	7968.	301600	8015.	303151	8062.	304844	8109.	306359
7922.	299862	7969.	301608	8016.	303153	8063.	304853	8110.	306384
7923.	299870	7970.	301655	8017.	303201	8064.	304870	8111.	306389
7924.	299949	7971.	301683	8018.	303281	8065.	304917	8112.	306403
7925.	299958	7972.	301694	8019.	303363	8066.	304928	8113.	306448
7926.	299998	7973.	301710	8020.	303425	8067.	305055	8114.	306555
7927.	300034	7974.	301722	8021.	303503	8068.	305091	8115.	306622
7928.	300081	7975.	301775	8022.	303506	8069.	305102	8116.	306869
7929.	300097	7976.	301808	8023.	303523	8070.	305174	8117.	306897
7930.	300098	7977.	301830	8024.	303576	8071.	305212	8118.	306938
7931.	300099	7978.	301845	8025.	303601	8072.	305235	8119.	306942
7932.	300107	7979.	301849	8026.	303626	8073.	305237	8120.	306947

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
8121.	306997	8168.	309148	8215.	310531	8262.	311912	8309.	313077
8122.	307031	8169.	309175	8216.	310542	8263.	311960	8310.	313098
8123.	307118	8170.	309247	8217.	310565	8264.	312005	8311.	313107
8124.	307132	8171.	309289	8218.	310567	8265.	312036	8312.	313181
8125.	307211	8172.	309291	8219.	310613	8266.	312087	8313.	313233
8126.	307214	8173.	309390	8220.	310675	8267.	312123	8314.	313259
8127.	307217	8174.	309418	8221.	310681	8268.	312128	8315.	313285
8128.	307256	8175.	309420	8222.	310705	8269.	312144	8316.	313292
8129.	307356	8176.	309621	8223.	310739	8270.	312163	8317.	313313
8130.	307378	8177.	309637	8224.	310791	8271.	312175	8318.	313377
8131.	307389	8178.	309642	8225.	310793	8272.	312198	8319.	313402
8132.	307455	8179.	309694	8226.	310851	8273.	312209	8320.	313407
8133.	307458	8180.	309717	8227.	310969	8274.	312211	8321.	313408
8134.	307512	8181.	309744	8228.	310994	8275.	312310	8322.	313409
8135.	307663	8182.	309768	8229.	311025	8276.	312311	8323.	313434
8136.	307683	8183.	309830	8230.	311141	8277.	312313	8324.	313486
8137.	307719	8184.	309835	8231.	311189	8278.	312326	8325.	313557
8138.	307723	8185.	309839	8232.	311212	8279.	312331	8326.	313620
8139.	307777	8186.	309844	8233.	311217	8280.	312361	8327.	313621
8140.	307887	8187.	309845	8234.	311233	8281.	312428	8328.	313694
8141.	307893	8188.	309886	8235.	311254	8282.	312430	8329.	313736
8142.	307974	8189.	309887	8236.	311265	8283.	312464	8330.	313784
8143.	307992	8190.	309917	8237.	311321	8284.	312482	8331.	313829
8144.	308009	8191.	309938	8238.	311338	8285.	312486	8332.	313842
8145.	308036	8192.	310022	8239.	311428	8286.	312503	8333.	313890
8146.	308048	8193.	310043	8240.	311454	8287.	312525	8334.	313891
8147.	308185	8194.	310044	8241.	311481	8288.	312559	8335.	313909
8148.	308198	8195.	310094	8242.	311485	8289.	312582	8336.	313916
8149.	308355	8196.	310098	8243.	311515	8290.	312587	8337.	313924
8150.	308439	8197.	310156	8244.	311557	8291.	312615	8338.	313961
8151.	308565	8198.	310173	8245.	311563	8292.	312644	8339.	313978
8152.	308604	8199.	310178	8246.	311581	8293.	312669	8340.	313986
8153.	308605	8200.	310182	8247.	311647	8294.	312685	8341.	313993
8154.	308642	8201.	310217	8248.	311661	8295.	312694	8342.	313994
8155.	308683	8202.	310219	8249.	311664	8296.	312713	8343.	314011
8156.	308717	8203.	310221	8250.	311707	8297.	312728	8344.	314034
8157.	308815	8204.	310241	8251.	311713	8298.	312754	8345.	314055
8158.	308846	8205.	310262	8252.	311722	8299.	312758	8346.	314064
8159.	308872	8206.	310273	8253.	311735	8300.	312782	8347.	314078
8160.	308949	8207.	310291	8254.	311743	8301.	312809	8348.	314093
8161.	309061	8208.	310338	8255.	311745	8302.	312850	8349.	314094
8162.	309066	8209.	310364	8256.	311770	8303.	312860	8350.	314096
8163.	309095	8210.	310425	8257.	311822	8304.	312927	8351.	314117
8164.	309109	8211.	310428	8258.	311826	8305.	312941	8352.	314137
8165.	309110	8212.	310454	8259.	311880	8306.	312981	8353.	314149
8166.	309116	8213.	310471	8260.	311890	8307.	313038	8354.	314165
8167.	309130	8214.	310513	8261.	311906	8308.	313067	8355.	314186

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
8356.	314191	8403.	315095	8450.	316349	8497.	318080	8544.	319332
8357.	314199	8404.	315107	8451.	316376	8498.	318089	8545.	319358
8358.	314218	8405.	315143	8452.	316393	8499.	318111	8546.	319421
8359.	314220	8406.	315163	8453.	316403	8500.	318127	8547.	319425
8360.	314233	8407.	315232	8454.	316423	8501.	318152	8548.	319440
8361.	314321	8408.	315233	8455.	316453	8502.	318154	8549.	319620
8362.	314368	8409.	315302	8456.	316459	8503.	318159	8550.	319666
8363.	314420	8410.	315323	8457.	316461	8504.	318162	8551.	319697
8364.	314451	8411.	315349	8458.	316463	8505.	318164	8552.	319791
8365.	314464	8412.	315398	8459.	316496	8506.	318185	8553.	319873
8366.	314469	8413.	315400	8460.	316514	8507.	318190	8554.	319902
8367.	314476	8414.	315406	8461.	316516	8508.	318211	8555.	319906
8368.	314489	8415.	315431	8462.	316521	8509.	318223	8556.	319932
8369.	314491	8416.	315437	8463.	316532	8510.	318280	8557.	320006
8370.	314529	8417.	315457	8464.	316536	8511.	318312	8558.	320029
8371.	314560	8418.	315459	8465.	316540	8512.	318352	8559.	320045
8372.	314562	8419.	315491	8466.	316679	8513.	318373	8560.	320058
8373.	314572	8420.	315545	8467.	316695	8514.	318422	8561.	320094
8374.	314582	8421.	315546	8468.	316725	8515.	318427	8562.	320102
8375.	314588	8422.	315580	8469.	316758	8516.	318453	8563.	320122
8376.	314591	8423.	315587	8470.	316786	8517.	318459	8564.	320157
8377.	314606	8424.	315598	8471.	316787	8518.	318466	8565.	320218
8378.	314654	8425.	315617	8472.	316811	8519.	318555	8566.	320225
8379.	314664	8426.	315649	8473.	316862	8520.	318564	8567.	320229
8380.	314674	8427.	315654	8474.	316892	8521.	318709	8568.	320352
8381.	314676	8428.	315659	8475.	316927	8522.	318745	8569.	320413
8382.	314725	8429.	315699	8476.	316942	8523.	318750	8570.	320469
8383.	314747	8430.	315712	8477.	316986	8524.	318800	8571.	320484
8384.	314752	8431.	315740	8478.	317099	8525.	318820	8572.	320504
8385.	314761	8432.	315768	8479.	317202	8526.	318844	8573.	320521
8386.	314768	8433.	315769	8480.	317297	8527.	318865	8574.	320536
8387.	314785	8434.	315800	8481.	317320	8528.	318904	8575.	320559
8388.	314835	8435.	315969	8482.	317416	8529.	318913	8576.	320691
8389.	314836	8436.	315975	8483.	317420	8530.	318934	8577.	320701
8390.	314866	8437.	315988	8484.	317438	8531.	318939	8578.	320741
8391.	314869	8438.	315990	8485.	317440	8532.	318974	8579.	320781
8392.	314874	8439.	316008	8486.	317546	8533.	318978	8580.	320857
8393.	314881	8440.	316013	8487.	317584	8534.	318983	8581.	320864
8394.	314906	8441.	316045	8488.	317653	8535.	319005	8582.	320964
8395.	314925	8442.	316060	8489.	317680	8536.	319030	8583.	321050
8396.	314960	8443.	316077	8490.	317728	8537.	319039	8584.	321051
8397.	315021	8444.	316092	8491.	317737	8538.	319168	8585.	321133
8398.	315035	8445.	316096	8492.	317759	8539.	319208	8586.	321171
8399.	315048	8446.	316121	8493.	317793	8540.	319212	8587.	321183
8400.	315075	8447.	316171	8494.	317810	8541.	319235	8588.	321252
8401.	315092	8448.	316202	8495.	317942	8542.	319297	8589.	321262
8402.	315093	8449.	316242	8496.	318018	8543.	319299	8590.	321291

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
8591.	321376	8638.	323266	8685.	325407	8732.	327409	8779.	328933
8592.	321504	8639.	323275	8686.	325461	8733.	327488	8780.	328966
8593.	321526	8640.	323322	8687.	325490	8734.	327492	8781.	328982
8594.	321585	8641.	323356	8688.	325533	8735.	327524	8782.	328986
8595.	321610	8642.	323357	8689.	325543	8736.	327544	8783.	328991
8596.	321677	8643.	323387	8690.	325571	8737.	327548	8784.	329036
8597.	321687	8644.	323401	8691.	325604	8738.	327559	8785.	329050
8598.	321689	8645.	323516	8692.	325619	8739.	327592	8786.	329069
8599.	321704	8646.	323684	8693.	325639	8740.	327600	8787.	329070
8600.	321705	8647.	323721	8694.	325648	8741.	327608	8788.	329074
8601.	321728	8648.	323768	8695.	325651	8742.	327645	8789.	329096
8602.	321734	8649.	323829	8696.	325689	8743.	327696	8790.	329098
8603.	321774	8650.	323845	8697.	325694	8744.	327839	8791.	329099
8604.	321788	8651.	323855	8698.	325743	8745.	327846	8792.	329141
8605.	321793	8652.	323858	8699.	325755	8746.	327896	8793.	329155
8606.	321794	8653.	323909	8700.	325831	8747.	327915	8794.	329181
8607.	321805	8654.	324074	8701.	325839	8748.	327938	8795.	329234
8608.	321819	8655.	324098	8702.	325849	8749.	327954	8796.	329245
8609.	321875	8656.	324111	8703.	325922	8750.	327997	8797.	329251
8610.	321887	8657.	324113	8704.	326027	8751.	328005	8798.	329271
8611.	321897	8658.	324125	8705.	326029	8752.	328007	8799.	329310
8612.	321903	8659.	324193	8706.	326031	8753.	328008	8800.	329343
8613.	321905	8660.	324245	8707.	326188	8754.	328018	8801.	329362
8614.	322089	8661.	324256	8708.	326197	8755.	328077	8802.	329367
8615.	322124	8662.	324258	8709.	326285	8756.	328079	8803.	329393
8616.	322167	8663.	324290	8710.	326296	8757.	328133	8804.	329419
8617.	322170	8664.	324322	8711.	326301	8758.	328189	8805.	329430
8618.	322171	8665.	324369	8712.	326303	8759.	328226	8806.	329478
8619.	322180	8666.	324442	8713.	326406	8760.	328258	8807.	329479
8620.	322189	8667.	324465	8714.	326470	8761.	328336	8808.	329495
8621.	322192	8668.	324470	8715.	326483	8762.	328396	8809.	329509
8622.	322342	8669.	324489	8716.	326614	8763.	328446	8810.	329560
8623.	322573	8670.	324602	8717.	326618	8764.	328464	8811.	329569
8624.	322577	8671.	324669	8718.	326648	8765.	328507	8812.	329602
8625.	322579	8672.	324708	8719.	326711	8766.	328513	8813.	329647
8626.	322604	8673.	324781	8720.	326725	8767.	328526	8814.	329659
8627.	322619	8674.	324831	8721.	327033	8768.	328645	8815.	329671
8628.	322626	8675.	324839	8722.	327043	8769.	328660	8816.	329706
8629.	322655	8676.	324875	8723.	327069	8770.	328662	8817.	329721
8630.	322840	8677.	324894	8724.	327078	8771.	328663	8818.	329779
8631.	322909	8678.	324896	8725.	327087	8772.	328695	8819.	329819
8632.	322919	8679.	324957	8726.	327114	8773.	328715	8820.	329820
8633.	322937	8680.	324971	8727.	327168	8774.	328726	8821.	329880
8634.	322984	8681.	325072	8728.	327231	8775.	328842	8822.	329888
8635.	323049	8682.	325282	8729.	327272	8776.	328856	8823.	329905
8636.	323176	8683.	325355	8730.	327316	8777.	328862	8824.	329930
8637.	323258	8684.	325400	8731.	327357	8778.	328890	8825.	329933

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
8826.	329981	8880.	332044	8934.	333705	8988.	335560	9042.	337937
8827.	330019	8881.	332061	8935.	333728	8989.	335575	9043.	337977
8828.	330045	8882.	332154	8936.	333832	8990.	335579	9044.	338010
8829.	330092	8883.	332166	8937.	333843	8991.	335584	9045.	338015
8830.	330112	8884.	332170	8938.	333860	8992.	335628	9046.	338035
8831.	330211	8885.	332178	8939.	333883	8993.	335649	9047.	338060
8832.	330238	8886.	332225	8940.	333896	8994.	335710	9048.	338076
8833.	330252	8887.	332234	8941.	333907	8995.	335744	9049.	338129
8834.	330277	8888.	332240	8942.	333940	8996.	335763	9050.	338200
8835.	330294	8889.	332306	8943.	333978	8997.	335798	9051.	338236
8836.	330300	8890.	332314	8944.	333980	8998.	335885	9052.	338332
8837.	330301	8891.	332324	8945.	334002	8999.	335899	9053.	338343
8838.	330335	8892.	332348	8946.	334056	9000.	335903	9054.	338357
8839.	330394	8893.	332361	8947.	334157	9001.	335924	9055.	338397
8840.	330402	8894.	332451	8948.	334191	9002.	335952	9056.	338426
8841.	330472	8895.	332458	8949.	334204	9003.	335968	9057.	338438
8842.	330499	8896.	332464	8950.	334263	9004.	335984	9058.	338486
8843.	330507	8897.	332521	8951.	334280	9005.	336002	9059.	338502
8844.	330565	8898.	332597	8952.	334300	9006.	336045	9060.	338510
8845.	330567	8899.	332601	8953.	334330	9007.	336081	9061.	338550
8846.	330600	8900.	332631	8954.	334366	9008.	336202	9062.	338708
8847.	330613	8901.	332656	8955.	334379	9009.	336335	9063.	338730
8848.	330628	8902.	332702	8956.	334432	9010.	336359	9064.	338731
8849.	330664	8903.	332710	8957.	334495	9011.	336367	9065.	338767
8850.	330703	8904.	332715	8958.	334580	9012.	336381	9066.	338794
8851.	330758	8905.	332778	8959.	334619	9013.	336400	9067.	338817
8852.	330771	8906.	332802	8960.	334668	9014.	336455	9068.	338829
8853.	330808	8907.	332809	8961.	334672	9015.	336521	9069.	338847
8854.	330818	8908.	332826	8962.	334697	9016.	336532	9070.	338861
8855.	330820	8909.	332827	8963.	334764	9017.	336541	9071.	338916
8856.	330844	8910.	332849	8964.	334780	9018.	336641	9072.	338919
8857.	330845	8911.	332933	8965.	334786	9019.	336673	9073.	338964
8858.	330849	8912.	332957	8966.	334850	9020.	336717	9074.	338966
8859.	330907	8913.	332997	8967.	334863	9021.	336930	9075.	338968
8860.	330917	8914.	333003	8968.	334907	9022.	337017	9076.	338994
8861.	330923	8915.	333035	8969.	334908	9023.	337024	9077.	339010
8862.	331006	8916.	333036	8970.	334970	9024.	337041	9078.	339054
8863.	331007	8917.	333042	8971.	334993	9025.	337045	9079.	339062
8864.	331059	8918.	333061	8972.	335016	9026.	337103	9080.	339095
8865.	331073	8919.	333086	8973.	335018	9027.	337130	9081.	339098
8866.	331091	8920.	333122	8974.	335061	9028.	337187	9082.	339143
8867.	331107	8921.	333123	8975.	335070	9029.	337198	9083.	339177
8868.	331118	8922.	333171	8976.	335075	9030.	337369	9084.	339228
8869.	331181	8923.	333197	8977.	335132	9031.	337415	9085.	339232
8870.	331238	8924.	333198	8978.	335198	9032.	337510	9086.	339279
8871.	331403	8925.	333217	8979.	335223	9033.	337521	9087.	339461
8872.	331467	8926.	333262	8980.	335235	9034.	337542	9088.	339468
8873.	331649	8927.	333370	8981.	335329	9035.	337557	9089.	339478
8874.	331821	8928.	333406	8982.	335355	9036.	337566	9090.	339504
8875.	331858	8929.	333433	8983.	335407	9037.	337646	9091.	339602
8876.	331860	8930.	333485	8984.	335444	9038.	337674	9092.	339638
8877.	331861	8931.	333514	8985.	335487	9039.	337830	9093.	339642
8878.	331921	8932.	333639	8986.	335514	9040.	337886	9094.	339680
8879.	331998	8933.	333647	8987.	335529	9041.	337887	9095.	339709

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
9096.	339725	9149.	342315	9202.	344140	9255.	345804	9308.	347853
9097.	339738	9150.	342384	9203.	344149	9256.	345809	9309.	347922
9098.	339761	9151.	342408	9204.	344180	9257.	345821	9310.	347930
9099.	339784	9152.	342410	9205.	344228	9258.	345822	9311.	347971
9100.	339792	9153.	342412	9206.	344265	9259.	345837	9312.	347985
9101.	339817	9154.	342455	9207.	344322	9260.	345892	9313.	347997
9102.	339866	9155.	342489	9208.	344353	9261.	345905	9314.	348003
9103.	339872	9156.	342496	9209.	344375	9262.	345975	9315.	348053
9104.	339875	9157.	342510	9210.	344401	9263.	346009	9316.	348202
9105.	339876	9158.	342511	9211.	344432	9264.	346022	9317.	348225
9106.	339886	9159.	342552	9212.	344444	9265.	346070	9318.	348465
9107.	339932	9160.	342562	9213.	344534	9266.	346071	9319.	348469
9108.	340034	9161.	342563	9214.	344558	9267.	346075	9320.	348500
9109.	340097	9162.	342619	9215.	344559	9268.	346126	9321.	348520
9110.	340194	9163.	342635	9216.	344564	9269.	346144	9322.	348553
9111.	340210	9164.	342639	9217.	344597	9270.	346190	9323.	348570
9112.	340229	9165.	342708	9218.	344643	9271.	346279	9324.	348571
9113.	340246	9166.	342764	9219.	344761	9272.	346293	9325.	348625
9114.	340249	9167.	342780	9220.	344802	9273.	346311	9326.	348650
9115.	340264	9168.	342829	9221.	344810	9274.	346325	9327.	348668
9116.	340325	9169.	342952	9222.	344816	9275.	346353	9328.	348682
9117.	340432	9170.	342964	9223.	344833	9276.	346412	9329.	348694
9118.	340463	9171.	342991	9224.	344901	9277.	346421	9330.	348703
9119.	340498	9172.	343009	9225.	344999	9278.	346459	9331.	348711
9120.	340519	9173.	343054	9226.	345172	9279.	346472	9332.	348759
9121.	340612	9174.	343061	9227.	345206	9280.	346505	9333.	348769
9122.	340649	9175.	343192	9228.	345219	9281.	346569	9334.	348776
9123.	340791	9176.	343310	9229.	345250	9282.	346721	9335.	348780
9124.	340797	9177.	343334	9230.	345260	9283.	346843	9336.	348799
9125.	340838	9178.	343360	9231.	345274	9284.	346915	9337.	348831
9126.	340881	9179.	343431	9232.	345290	9285.	346958	9338.	348866
9127.	340931	9180.	343434	9233.	345314	9286.	346974	9339.	348872
9128.	341029	9181.	343482	9234.	345318	9287.	346976	9340.	348899
9129.	341138	9182.	343521	9235.	345345	9288.	347056	9341.	348922
9130.	341227	9183.	343589	9236.	345360	9289.	347072	9342.	348955
9131.	341272	9184.	343602	9237.	345368	9290.	347154	9343.	348971
9132.	341288	9185.	343661	9238.	345369	9291.	347262	9344.	349000
9133.	341334	9186.	343712	9239.	345395	9292.	347281	9345.	349027
9134.	341342	9187.	343745	9240.	345398	9293.	347282	9346.	349066
9135.	341379	9188.	343776	9241.	345402	9294.	347317	9347.	349077
9136.	341380	9189.	343799	9242.	345422	9295.	347352	9348.	349091
9137.	341387	9190.	343810	9243.	345430	9296.	347485	9349.	349117
9138.	341408	9191.	343811	9244.	345457	9297.	347507	9350.	349143
9139.	341439	9192.	343833	9245.	345474	9298.	347514	9351.	349204
9140.	341653	9193.	343889	9246.	345493	9299.	347531	9352.	349208
9141.	341726	9194.	343925	9247.	345504	9300.	347559	9353.	349218
9142.	341806	9195.	343944	9248.	345531	9301.	347568	9354.	349225
9143.	341834	9196.	343960	9249.	345592	9302.	347604	9355.	349255
9144.	342090	9197.	343971	9250.	345597	9303.	347609	9356.	349278
9145.	342098	9198.	344006	9251.	345608	9304.	347720	9357.	349327
9146.	342261	9199.	344029	9252.	345615	9305.	347741	9358.	349351
9147.	342288	9200.	344095	9253.	345673	9306.	347782	9359.	349364
9148.	342310	9201.	344134	9254.	345800	9307.	347842	9360.	349382

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
9361.	349405	9390.	350379	9419.	351290	9448.	352157	9477.	353602
9362.	349428	9391.	350410	9420.	351298	9449.	352216	9478.	353682
9363.	349475	9392.	350548	9421.	351369	9450.	352312	9479.	353704
9364.	349497	9393.	350557	9422.	351400	9451.	352338	9480.	353853
9365.	349532	9394.	350576	9423.	351452	9452.	352380	9481.	353871
9366.	349582	9395.	350643	9424.	351470	9453.	352450	9482.	353928
9367.	349600	9396.	350650	9425.	351526	9454.	352453	9483.	354022
9368.	349627	9397.	350667	9426.	351548	9455.	352508	9484.	354037
9369.	349748	9398.	350670	9427.	351554	9456.	352565	9485.	354110
9370.	349817	9399.	350687	9428.	351590	9457.	352583	9486.	354131
9371.	349818	9400.	350696	9429.	351597	9458.	352591	9487.	354134
9372.	349840	9401.	350710	9430.	351647	9459.	352601	9488.	354186
9373.	349847	9402.	350790	9431.	351679	9460.	352651	9489.	354204
9374.	349850	9403.	350819	9432.	351761	9461.	352685	9490.	354337
9375.	349891	9404.	350835	9433.	351794	9462.	352690	9491.	354359
9376.	349908	9405.	350854	9434.	351799	9463.	352739	9492.	354392
9377.	349987	9406.	350882	9435.	351805	9464.	352841	9493.	354442
9378.	350002	9407.	350921	9436.	351819	9465.	352965	9494.	354468
9379.	350017	9408.	351038	9437.	351849	9466.	353034	9495.	354525
9380.	350030	9409.	351103	9438.	351966	9467.	353056	9496.	354581
9381.	350062	9410.	351106	9439.	351988	9468.	353061	9497.	354582
9382.	350071	9411.	351135	9440.	352077	9469.	353080	9498.	354585
9383.	350176	9412.	351175	9441.	352089	9470.	353368	9499.	354640
9384.	350177	9413.	351215	9442.	352107	9471.	353397	9500.	354683
9385.	350213	9414.	351234	9443.	352119	9472.	353435	9501.	354689
9386.	350219	9415.	351236	9444.	352120	9473.	353488	9502.	354795
9387.	350272	9416.	351249	9445.	352127	9474.	353495	9503.	354809
9388.	350304	9417.	351265	9446.	352137	9475.	353527		
9389.	350306	9418.	351268	9447.	352142	9476.	353594		

टीप:—

1. सूची में दर्शाये गये परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक है, यदि प्रत्याशी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2014 के लिये अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी.
2. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2014 में अर्ह आवेदकों के लिये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014 की लिखित परीक्षा दिनांक 28-10-2015 से आयोजित होगी. इस हेतु अर्ह आवेदक आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर परीक्षा परिणाम देख सकेंगे.
3. अर्ह आवेदक राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014 में बैठने हेतु आवेदन-पत्र एम. पी. ऑनलाईन से दिनांक 16 जुलाई, 2015 से 17 अगस्त, 2015 तक भर सकेंगे. इसकी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 15 जुलाई, 2015 तक जारी कर दी जायेगी.
4. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा.
5. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
6. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चरप्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जायेगी.
7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.
8. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014 लिखित परीक्षा के समय प्रवेश-पत्र के साथ आवेदक अपना मूल पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लाएंगे. इसकी प्रतिदिन जाँच की जाएगी.

आर. आर. कान्हेरे,
परीक्षा नियंत्रक.

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 20 जुलाई, 2015

पत्र क्र.1960/री.ए.डी.एम./2015.—उप-पुलिस अधीक्षक, यातायात पश्चिम क्षेत्र, जोन-1, इन्दौर द्वारा अपने प्रतिवेदन पत्र क्रमांक उ.पु.अ./याता./पक्षे/जोन-1/230/2015, दिनांक 18 मई, 2015 द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में ट्रांसपोर्ट नगर की ओर भार मालवाहन (ट्रक, आयसर, ट्रेलर आदि) राजीव गांधी चौराहा से भंवरकुआं होकर ट्रांसपोर्ट नगर में प्रवेश करते हैं एवं इसी मार्ग से वापस जाते हैं साथ ही भंवरकुआं चौराहा एवं इसके आसपास के क्षेत्र में खण्डवा रोड पर विश्वविद्यालय, अनेक शिक्षण संस्थान एवं होस्टल स्थित हैं और इनमें पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या हजारों में है, जो सभी भंवरकुआं चौराहा से आवागमन करते हैं। इस स्थिति में भंवरकुआं चौराहा पर वाहनों का अत्यधिक दबाव रहता है, भंवरकुआं चौराहा पर बीआरटीएस भी है, बीआरटीएस पर मिक्स ट्रेफिक चलने से एवं भार मालवाहनों के आवागमन से चौराहा से गुजरने वाले वाहनों की संख्या और अधिक होने के कारण स्थिति और अधिक जटिल हो गई है। जिससे भंवरकुआं चौराहा पर यातायात जाम के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं में भी लगातार वृद्धि होकर हर समय दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है।

वर्तमान में टी चौईथराम पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं पुल को आने एवं जाने के लिए दोनों साईड से खोल दिया गया है। अतः राजीव गांधी चौराहा से भंवरकुआं चौराहा होकर ट्रांसपोर्ट नगर की ओर भार मालवाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर राजीव गांधी चौराहा से भंवरकुआं चौराहा होकर ट्रांसपोर्ट नगर की ओर भार मालवाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर राजीव गांधी चौराहा से टी चौईथराम होकर ट्रांसपोर्ट नगर की ओर से आसानी से किया जा सकता है। इससे भंवरकुआं चौराहा एवं बीआरटीएस पर भार मालवाहनों का दबाव कम होगा एवं दुर्घटनाओं में भी कमी लाई जा सकेगी। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट नगर यूनियन के पदाधिकारीगण से भी चर्चा की गई, जिन्होंने भार मालवाहनों का आवागमन टी चौईथराम होकर जाने में सहमति व्यक्त की है। यातायात का अत्यधिक दबाव इस क्षेत्र में रहता है और सदैव दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस मार्ग पर सामान्य वाहनों के साथ-साथ भार वाहनों के परिवहन के कारण दुर्घटनाओं की आशंका के साथ-साथ सदैव जाम की स्थिति बनी रहती है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये राजीव गांधी चौराहा से भंवरकुआं चौराहा होकर ट्रांसपोर्ट नगर की ओर भारी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित/प्रतिबंधित किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राप्त प्रस्ताव से सहमत होते हुये मोटरयान नियम-1994 के नियम-215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-115 में विहित प्रावधानों के अनुपालन में मैं, पी. नरहरि, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर निम्नानुसार व्यस्तम मार्ग पर उनके सामने दर्शाये गये समय एवं अवधि में ट्रक/भारवाही वाहनों के इन्दौर शहर में आवागमन को सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार प्रतिबन्धित करता हूँ:-

क्र.	मार्ग	प्रतिबंधित समय एवं अवधि	रिमार्क
1.	राजीव गांधी चौराहा से भंवरकुआं चौराहा होकर ट्रांसपोर्ट नगर में आने-जाने वाले ट्रक/भार माल वाहनों.	पूर्णकालिक	राजीव गांधी चौराहा से टी चौईथराम होकर ट्रांसपोर्ट नगर ट्रक/भार माल वाहनों आ जा सकेंगे.

1. यह प्रतिबंध केवल भार वाहनों के लिये है, शेष हल्के वाहन जैसे कार/जीप तथा दुपहिया वाहन यथावत् पूर्ववत् चालू रहेंगे.
2. उपरोक्त आदेश विभिन्न विभागों तथा जन-सामान्य आदि से प्राप्त सूचनाओं तथा अन्य निष्कर्षों के आधार पर उक्त आदेश को पूर्णतः/अंशतः यथा अपेक्षित संशोधित किया जा सकेगा. यह आदेश एक मास की अवधि तक प्रभावशील रहेगा, निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति आदि प्राप्त न होने पर यह अधिसूचना स्वतः अमल में आवेगी.

पी. नरहरि,
जिला दण्डाधिकारी.

(421)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक-न्यास, ग्वालियर

प्र.क्र. 05/2014-15/बी-113(1).

ग्वालियर, दिनांक 24 जुलाई, 2015

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5 (1) देखिए]

आवेदक श्री सुरेशचन्द्र बंसल पुत्र स्व. श्री वासुदेव प्रसाद बंसल, निवासी बंसल भवन बक्षी की गोठ, जनकगंज, लशकर, ग्वालियर ने

“श्री वासुदेव प्रसाद बंसल वैकुण्ठीदेवी चैरिटेबिल ट्रस्ट” बंसल भवन बक्षी की गोठ, जनकगंज, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश ने 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 28 अगस्त, 2015 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है उसका गठन करता है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में नियत दिनांक 28 अगस्त, 2015 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता है।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1. लोक न्यास का नाम
एवं पता | : | “श्री वासुदेव प्रसाद बंसल वैकुण्ठीदेवी चैरिटेबिल ट्रस्ट”
बंसल भवन बक्षी की गोठ, जनकगंज, लश्कर, ग्वालियर. |
| 2. चल सम्पत्ति | : | 81,000/- रुपये. |
| 3. अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |

महीप तेजस्वी,
पंजीयक.

(422)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-पुनासा, जिला खंडवा

प्र.क्र. /बी-113(1)2014-15/.

जारी, दिनांक 28 जुलाई, 2013

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2), एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम-1962, के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि आवेदक श्री शिवगीरी गुरुजी श्री मुक्तानंदजी, निवासी वार्ड नं. 10 परिक्रमा पथ राजराजेश्वरी सेवा संस्थान ओंकारेश्वर, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा द्वारा श्री राजराजेश्वरी सेवा संस्थान ट्रस्ट परिक्रमा मार्ग ओंकारेश्वर, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 28 अगस्त, 2015 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

(सार्वजनिक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता | : | “श्री राजराजेश्वरी सेवा संस्थान ट्रस्ट ओंकारेश्वर”
श्री राजराजेश्वरी सेवा संस्थान गौरी सोमनाथ, ओंकारेश्वर,
पोस्ट ओंकारेश्वर, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश. |
|-----------------------------------|---|--|

अनुसूची “अ”

- | | | |
|-------------|---|--|
| चल सम्पत्ति | : | 1. मंदिर परिसर स्थित भगवान की मूर्ति के 60 किलो चांदी के अभूषण.
2. ट्रस्ट के पास आयकर रिटर्न अनुसार नगद राशि. |
|-------------|---|--|

अनुसूची "ब"

- अचल सम्पत्ति :
1. माँ राजराजेश्वरी मंदिर केम्पस.
 2. 90 फीट की विशाल शिव प्रतिमा.
 3. निःशुल्क अन्न क्षेत्र भवन.
 4. निःशुल्क वृद्धाश्रम भवन.
 5. निःशुल्क हास्पिटल भवन.
 6. साईं मंदिर, शनि मंदिर, राम मंदिर.

(423)

बी. कार्तिकेयन,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शहर एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मई, 2015

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

1. आवेदक श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल आ. स्व. श्री वल्लभदास जी अग्रवाल संरक्षक न्यासी भोपाल द्वारा अजय अग्रवाल मेमोरियल धरमार्थ एवं परमार्थ ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शायी गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 15 जून, 2015 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करे अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अधिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : अजय अग्रवाल मेमोरियल धरमार्थ एवं परमार्थ ट्रस्ट,
कार्यालय का पता : अग्रवाल काम्पलेक्स, 11-बी, तृतीय तल,
मस्जिद शकूर खां मारवाड़ी रोड, भोपाल.
2. अचल सम्पत्ति : कुछ नहीं.
3. चल सम्पत्ति : रुपये 5,00,000/- (रुपये पाँच लाख).

(433)

सुनील राज नायर,
रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. टी. टी. नगर, वृत्त भोपाल

प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि "MAXD SPORTS TRUST" द्वारा श्री विभीषण शिवदास नागरगोजे, निवासी-302, डी. के. आर. जोन-5, बार्ड-22 भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-02 के तहत आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 02 सितम्बर, 2015 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

- | | | |
|------------------|---|-----------------------|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | " MAXD SPORTS TRUST " |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | कुछ नहीं. |
| 3. चल सम्पत्ति | : | 1000.00 |

सुनील राज नायर,
रजिस्ट्रार.

(433-A)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय विदिशा

प्रारूप-चार

(नियम-10 देखिए)

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से सम्बंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि सिरोंज (निवेश क्षेत्र) के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति—

1. कलेक्टर, जिला विदिशा
2. नगरपालिका परिषद्, सिरोंज
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, विदिशा में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है.

अनुसूची

सिरोंज निवेश क्षेत्र की सीमायें

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. उत्तर में | : | वर्तमान सिरोंज नगरपालिका सीमा की उत्तरी सीमा तक. |
| 2. पश्चिम में | : | वर्तमान सिरोंज नगरपालिका की पश्चिमी सीमा तक तथा ग्राम वीरपुर की पश्चिमी सीमा तक. |
| 3. दक्षिण में | : | ग्राम वीरपुर, मलसीपुर, वर्तमान सिरोंज नगरपालिका सीमा की दक्षिणी सीमा तक तथा अहीरखेडी की दक्षिणी सीमा तक. |
| 4. पूर्व में | : | ग्राम अहीरखेडी तथा वर्तमान सिरोंज नगरपालिका की पूर्वी सीमा तक. |

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किए गए वर्तमान भूमि उपयोग सम्बन्धी मानचित्र से सम्बन्धित हो, उसे लिखित में नगर तथा ग्राम निवेश के सम्बन्धित, जिला कार्यालय में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें.

(418)

आर. सी. सेन,
सहायक संचालक.

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां, सम्भाग ग्वालियर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 21 जनवरी, 2015 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ठाटी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक जे. आर./ जी. डब्ल्यू/636, दिनांक 04 जुलाई, 2015 है. संस्था उपविधि क्रमांक 3.1 से 3.8 तक वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है साथ ही संस्था द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां संपादित नहीं की जा रही हैं. अतः संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष, आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ठाटी, जिला शिवपुरी के

माध्यम से एवं समस्त संबंधित सदस्यों को एतद्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त किया जाये तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 21 जुलाई, 2015 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा यह मानकर कि इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है। आगामी संस्था पंजीकरण की निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(420-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज़ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 21 जनवरी, 2015 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भैसा, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक जे. आर./जी. डब्ल्यू/635, दिनांक 04 जुलाई, 2015 है। संस्था उपविधि क्रमांक 3.1 से 3.8 तक वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है साथ ही संस्था द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां संपादित नहीं की जा रही हैं। अतः संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है।

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है। फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। अतएव संस्था को अध्यक्ष —महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भैसा, जिला शिवपुरी के माध्यम से एवं समस्त संबंधित सदस्यों को एतद्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त किया जाये तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 21 जुलाई, 2015 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा यह मानकर कि इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है। आगामी संस्था पंजीकरण की निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

अभय कुमार खरे,
संयुक्त पंजीयक.

(420-G)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 15 जुलाई, 2015

क्र./परि./2015/1729.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नंबर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नंबर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नंबर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	भारत तिब्बत सीमा पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी.	136/03-04-1981	2457/11-12-2012	श्री सुनील निम्बालकर, वरि.सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नंबर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नंबर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 15 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(426)

संशोधित आदेश

कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1653, दिनांक 08 नवम्बर, 2013 द्वारा रंगाई-छपाई सहकारी संस्था शिवपुरी का परिसमापक श्री सुनील निम्बालकर, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि, उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री मुकेश सक्सैना, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(432-F)

संशोधित आदेश

कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2458, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा सुगम साख सहकारी संस्था, शिवपुरी का परिसमापक श्री सुनील निम्बालकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि, उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री मुकेश सक्सैना, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(432-G)

संशोधित आदेश

कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2456, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा विद्युत मंडल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था शिवपुरी का परिसमापक श्री सुनील निम्बालकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि, उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री मुकेश सक्सैना, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(432-H)

शिवपुरी, दिनांक 17 जुलाई, 2015

संशोधित आदेश

क्र./परि./2015/1745.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./760, दिनांक 04 जून, 2014 द्वारा फल, साग-भाजी उत्पादक सहकारी संस्था दिनारा का परिसमापक श्री यू. सी. पाठक, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि, उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री डी. पी. राठौर, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(432-I)

शिवपुरी, दिनांक 17 जुलाई, 2015

संशोधित आदेश

क्र./परि./2015/1746.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./582, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा आदर्श गुड खांडसारी सहकारी संस्था, करैरा का परिसमापक श्री यू. सी. पाठक, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि, उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री डी. पी. राठौर, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(432-J)

शिवपुरी, दिनांक 17 जुलाई, 2015

संशोधित आदेश

क्र./परि./2015/1747.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./582, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा आदर्श चर्मोद्योग सहकारी संस्था, करैरा

का परिसमापक श्री यू. सी. पाठक, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि, उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री डी. पी. राठौर, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(432-K)

शिवपुरी, दिनांक 17 जुलाई, 2015

संशोधित आदेश

क्र./परि./2015/1748.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./243, दिनांक 23 अप्रैल, 2012 द्वारा आदर्श बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, भंडेरा का परिसमापक श्री यू. सी. पाठक, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि, उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री डी. पी. राठौर, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(432-L)

शिवपुरी, दिनांक 17 जुलाई, 2015

संशोधित आदेश

क्र./परि./2015/1749.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1583, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013 द्वारा प्रगतिशील मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, अलगी का परिसमापक श्री यू. सी. पाठक, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि, उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री डी. पी. राठौर, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(432-M)

शिवपुरी, दिनांक 17 जुलाई, 2015

संशोधित आदेश

क्र./परि./2015/1750.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1184, दिनांक 14 अगस्त, 2014 द्वारा महिला बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता सहकारी संस्था, सलैया डामरौन का परिसमापक श्री यू. सी. पाठक, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि, उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री चमन सिंह, उप-अंकेक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(432-N)

शिवपुरी, दिनांक 17 जुलाई, 2015

संशोधित आदेश

क्र./परि./2015/1751.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1185, दिनांक 14 अगस्त, 2014 द्वारा महिला बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता सहकारी संस्था, सितलारपुर का परिसमापक श्री यू. सी. पाठक, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि, उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री चमन सिंह, उप-अंकेक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(432-O)

एस. के. सिंह,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अगस्त, 2015-श्रावण 23, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 15 अप्रैल, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छदित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर, डबरा, भितरवार (ग्वालियर), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, पलेरा, (टीकमगढ़), लवकुश नगर, गौरीहार (छतरपुर), अजयगढ़ (पन्ना), बीना, खुरई, सागर, देवरी, राहतगढ़ (सागर), रघुराजनगर, रामपुर बघेलान, नागौद, अमरपाटन, मैहर (सतना), त्योंथर, मऊगंज, हनुमना, हुजूर (रीवा), जेतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़, (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), सिंहावल, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), सुवासराटप्पा, मंदसौर, श्यामगढ़, धुन्धड़का, संजीत (मंदसौर), जोबट, अलीराजपुर, सोण्डवा, च. शेखर आ. नगर (अलीराजपुर), खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), लटेरी, कुरवाई, विदिशा, गुलाबगंज (विदिशा), बैरसिया, हुजूर (भोपाल), रायसेन, बेगमगंज, गौहरगंज, बरेली, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन), घोडाडोंगरी, आठनेर, आमला (बैतूल), जबलपुर, मझौली, कुन्डम (जबलपुर), बिछिया, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील जतारा (टीकमगढ़), नौगांव, राजनगर, बिजावर, बक्सवाहा (छतरपुर), गुन्नौर, शाहनगर (पन्ना), रहली, गढ़ाकोटा, केसली (सागर), रामनगर (सतना), सिरमोर, गुढ, रायपुरकचुलियान (रीवा), गोपदबनास, मझौली, कुसमी (सीधी), बासोदा (विदिशा), भैंसदेही, शाहपुर, बैतूल, मुल्ताई (बैतूल), सीहोरा, पाटन (जबलपुर), निवास, नैनपुर, मण्डला (मण्डला), बजाग, शाहपुरा (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, परासिया, तामिया, सोंसर, अमरबाड़ा, चौरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील घाटीगांव (ग्वालियर), छतरपुर (छतरपुर), पन्ना, पवई (पन्ना), बंडा, शाहगढ़ (सागर), बुरहानपुर (बुरहानपुर), चिचोली (बैतूल), जुन्नारदेव, पांढुर्णा, बिछुआ, हरई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर), बड़ामलहरा (छतरपुर), ग्यारसपुर (विदिशा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.— जिला श्योपुर, झाबुआ में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला जबलपुर में फसल गेहूँ व बुरहानपुर में गेहूँ, चना व पन्ना, सागर, उमरिया, खरगौन, सीहोर, बैतूल व डिण्डौरी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, शहडोल, उमरिया, शाजापुर, विदिशा, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 15 अप्रैल, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. श्योपुर	82.0		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, तुअर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	54.0		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	76.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
*जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अटेर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. भिण्ड	..		(2) ..		
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	5.6		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	8.8		मूँगफली अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	3.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	47.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) उड़द, चना अधिक. सोयाबीन, गन्ना, गेहूँ कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	5.0		4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	9.0		(2) ..		
3. जतारा	25.0				
4. टीकमगढ़	15.0				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	13.0				
7. औरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	12.0		4. (1) तुअर, जौ अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	16.0		(2) ..		
3. नौगांव	33.0				
4. छतरपुर	36.8				
5. राजनगर	22.6				
6. बिजावर	22.0				
7. बड़ामलहरा	86.4				
8. बक्स्वाहा	26.4				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	9.4		4. (1) मूँग, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, मसूर, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	46.0		(2) ..		
3. गुन्नौर	28.0				
4. पवई	50.0				
5. शाहनगर	19.0				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	1.2		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	10.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	37.6				
4. सागर	14.2				
5. रेहली	25.4				
6. देवरी	12.0				
7. गढ़ाकोटा	33.8				
8. राहतगढ़	8.5				
9. केसली	21.0				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	41.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. रघुराजनगर	15.2		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	..		सरसों.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	5.0		(2) ..		
4. नागौद	2.2				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	1.0				
7. रामनगर	24.0				
8. मैहर	1.0				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	4.0		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	30.6		मसूर, अलसी, अरहर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	4.0		(2) ..		
4. हनुमना	12.2				
5. हजूर	8.2				
6. गुढ़	22.0				
7. रायपुरकर्चुलियान	26.0				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..		4. (1) गेहूँ, चना, कोदों-कुटकी, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		सोयाबीन, तुअर, राई-सरसों, मसूर,	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	..		मटर समान.		
4. जैतपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	2.4		4. (1) चना अधिक. राहर, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	9.4		राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	1.6		(2) ..		
4. पुष्पराजगढ़	7.8				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. बांधवगढ़	4.8		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	7.0		अलसी, जौ अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	14.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	20.4		4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	3.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	34.0				
4. कुसमी	21.0				
5. चुरहट	3.5				
6. रामपुरनैकिन	8.5				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) चना, गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		मसूर, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..		(2) ..		
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	1.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	8.0				
6. श्यामगढ़	4.0				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धड़का	7.0				
9. संजीत	15.0				
10. कयामपुर	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		चना, मसूर, मटर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..		(2) ..		
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापिपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) गेहूँ कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. जोवट	7.0		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	2.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	5.2				
5. उदयगढ़	..				
6. च. शेखर आ. न.	5.0				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ कम. चना समान.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.		
4. खरगौन	..		(2) ..		
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
*जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ...	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	36.4		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	14.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नेपानगर	16.0				
*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिलचीपुर	..		(2) ..		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	2.0		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कुरवाई	3.0				
4. बासौदा	19.0				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	1.0				
7. गुलाबगंज	19.0				
8. ग्यारसपुर	56.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	1.0		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तुअर, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	0.16		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. रायसेन	2.4		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		अधिक. चना, मसूर, लाख, तिवड़ा	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	0.4		कम.		
4. गौहरगंज	16.0		(2) ..		
5. बरेली	0.6				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	2.0				
8. उदयपुरा	12.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	26.6	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	12.3		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	20.6				
4. चिचोली	50.3				
5. बैतूल	23.7				
6. मुलताई	26.0				
7. आठनेर	16.4				
8. आमला	15.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) चना, मटर अधिक. मसूर मूंग कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	..		(2) ..		
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
*जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	34.2	चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	29.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	14.6				
4. मझौली	13.4				
5. कुण्डम	2.0				
*जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना, गेहूँ, मसूर, मटर अधिक. सोयाबीन, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	24.2		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	10.4		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. नैनपुर	22.4				
4. मण्डला	23.0				
5. घुघरी	5.6				
6. नारायणगंज	3.8				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	15.4		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	21.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शाहपुरा	21.0				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	20.6		4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	35.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	21.2				
4. जामई (तामिया)	18.0				
5. सोंसर	25.4				
6. पांढुर्णा	45.8				
7. अमरवाड़ा	34.0				
8. चौरई	15.8				
9. बिछुआ	42.0				
10. हरई	49.4				
11. बोलखेड़ा	45.4				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना, गेहूँ, जौ, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों कम. तिल, सन, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) ..		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला भिण्ड, गुना, बड़वानी, खण्डवा, राजगढ़, हरदा, कटनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(424)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.